

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 33 एवं 34 की उपधारा (2) तथा नियम 19 के अधीन लेखापरीक्षित खातों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

पंजीकरण संख्या ई-23382 (मुंबई)

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एन ई आई ए ट्रस्ट

समाप्त वर्ष के लिए: 31 मार्च, 2024.

क)	क्या खातों का रखरखाव नियमित रूप से तथा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;	हाँ
ख)	क्या प्राप्तियां एवं वितरण खातों के विवरण उचित एवं सही ढंग से दर्शाए गए हैं;	हाँ
ग)	क्या लेखापरीक्षा की तारीख को प्रबंधक अथवा ट्रस्टी की पास उपलब्ध नकदी शेष अथवा वाउचर, खातों के अनुरूप थे;	हाँ
घ)	क्या लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी बहियों, विलेख, खाते, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख उसे प्रस्तुत किए गए;	हाँ
ङ)	क्या चल एवं अचल सम्पतियों का रजिस्टर का रखरखाव उचित रूप से किया जाता है, उसमें हुए परिवर्तनों की सूचना समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाती है, तथा पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों एवं अशुद्धियों का विधिवत निवारण किया गया है;	किसी प्रकार की स्थायी संपत्ति नहीं है
च)	क्या प्रबंधक अथवा ट्रस्टी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे लेखा परीक्षक द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, उनके समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी;	हाँ
छ)	क्या ट्रस्ट की कोई संपत्ति अथवा निधि ट्रस्ट के उद्देश्य अथवा प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए उपयोग की गई थी;	नहीं
ज)	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि एवं	शून्य



	बट्टे खाते में डाली गई राशि, यदि कोई हो;	
झ)	क्या 5000/- रुपये से अधिक व्यय वाली मरम्मत अथवा निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं;	लागू नहीं
ञ)	क्या सार्वजनिक ट्रस्ट का कोई धन धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत निवेश किया गया ;	नहीं
ट)	धारा 36 के प्रावधानों के विपरीत अचल संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई हो, जो लेखा परीक्षक के ध्यान में आया हो;	शून्य
ठ)	सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित धन अथवा अन्य संपत्ति को वसूलने में अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथवा विफलता अथवा चूक अथवा धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा क्षति के सभी मामले, तथा क्या ऐसा व्यय, विफलता, चूक, हानि अथवा क्षति ट्रस्टियों अथवा ट्रस्ट के प्रबंधन में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विश्वास भंग अथवा निधियों के गलत उपयोग अथवा किसी अन्य कदाचार के परिणामस्वरूप हुई थी;	शून्य
ड)	क्या बजट नियम 16ए द्वारा प्रदत्त प्रारूप में दायर किया गया है	नहीं
ढ)	क्या ट्रस्टियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या बनाए रखी गई है;	हाँ
ण)	क्या बैठकें संबन्धित दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं;	हाँ
त)	क्या बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त बही रखी जाती है;	हाँ
थ)	क्या ट्रस्टियों में से किसी ट्रस्टी का ट्रस्ट के निवेश में कोई हित है;	नहीं
द)	क्या ट्रस्टियों में से कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का लेनदार अथवा देनदार है	नहीं
ध)	क्या पिछले वर्ष के खातों में लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित अनियमितताओं का लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान ट्रस्टियों द्वारा विधिवत निदान किया गया है;	शून्य
न)	कोई विशेष मामला जिसे लेखा परीक्षक द्वारा उप	एनईआईए ट्रस्ट द्वारा तथ्यों



अथवा सहायक धर्मादाय आयुक्त के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है ;

पर विचार करने एवं आयकर कानून में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, दावों के भुगतान हेतु केवल समय निधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने एवं अप्रयुक्त अंश को सावधि जमा में निवेश करने की आवश्यकता के साथ, चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई पद्धति को अपनाया गया है:

क. सावधि जमा के संचलन को आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा , ताकि एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त उपयोग से होने वाली विसंगति को टाला जा सके एवं जिसे भविष्य की आय हेतु अलग रखने की आवश्यकता न हो।

ख. इस संशोधन के कारण एनईआईए ट्रस्ट की कुल आय की सटीक स्थिति को प्रस्तुत करने में सहायक है एवं इससे अधिनियम की धारा 11 (2) के अधीन कृत्रिम आय के निर्माण एवं आगामी पांच वर्षों के भीतर इस प्रकार की निधि के उपयोग की बाध्यता प्रतिबंधित होगी जिसके दौरान



		<p>संबन्धित निधि को सावधि जमा में रखे जाने की अनिवार्यता होती है।</p> <p>उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आय की गणना तैयार की गई है तथा मूल्यांकन वर्ष 22-23 एवं मूल्यांकन वर्ष 23-24 में संचित समय आय का उपयोग किया गया है। तथा उपयोग के लिए किसी प्रकार का संचय लंबित नहीं है। साथ ही चालू वर्ष के दौरान, दिनांक 01.04.2021 के पश्चात प्राप्त समय में से 465.45 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।</p>
--	--	--

कृते वर्मा मेहता एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकर  
फर्म पंजीकरण संख्या : 112118 W

हस्ताक्षरित

तारीख : 28/09/2024

स्थान : मुंबई

सीए संदीप वर्मा  
भागीदार

सदस्यता संख्या :- 045711

यू डी आई एन क्रमांक:  
24045711BKIAGV1786





# VERMA MEHTA & ASSOCIATES

## Chartered Accountants

104, Creative Industries Premises, Sunder Nagar, Kalina, Sanatcruz (East) Mumbai 400098

Tel : 2666 6359 Fax : 6693 5131 E- Mail - vmaca92@gmail.com

**Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.**

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST

For the year ended: 31<sup>st</sup> March, 2024.

(a)	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;	YES
(b)	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;	YES
(c)	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;	YES
(d)	Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;	YES
(e)	Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;	THERE ARE NO FIXED ASSETS.
(f)	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;	YES
(g)	Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;	NO
(h)	The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;	NIL
(i)	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;	NA





# VERMA MEHTA & ASSOCIATES

## Chartered Accountants

104, Creative Industries Premises, Sunder Nagar, Kalina, Sanatcruz (East) Mumbai 400098  
Tel : 2666 6359 Fax : 6693 5131 E- Mail - vmaca92@gmail.com

(j)	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;	NO
(k)	Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;	NIL
(l)	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust;	NIL
(m)	Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;	NO
(n)	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;	YES
(o)	Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;	YES
(p)	Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;	YES
(q)	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust;	NO
(r)	Whether any of the trustees is a debtor or creditor of the trust;	NO
(s)	Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit;	NIL





# VERMA MEHTA & ASSOCIATES

## Chartered Accountants

104, Creative Industries Premises, Sunder Nagar, Kalina, Sanatcruz (East) Mumbai 400098  
Tel : 2666 6359 Fax : 6693 5131 E- Mail - vmaca92@gmail.com

(t)	Any other matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;	<p>The NEIA trust after Considering the facts and taking into account the change in income tax law, along with the restriction on the use of corpus funds solely for the payment of claims, and the requirement to invest the unused portion in fixed deposits, the following new methodology is adopted for the current year.:</p> <p>a. the movement of fixed deposits is not considered as an application of income, which will avoid the mismatch that arises due to excess utilization in one year, which cannot be set off against future income.</p> <p>b. The change will present a more accurate picture of the total income of the NEIA Trust, as it will prevent the creation of artificial income that would require accumulation under section 11(2) of the Act and the subsequent obligation to utilize such funds within five years, during which they must be placed in fixed deposits.</p> <p>Considering the above facts the computation of income is prepared and all the income accumulated in AY 22-23 and AY 23-24 stands utilised. And there is no further accumulation pending for utilisation. Also during the current year, Rs 465.45 crores have been utilised out of the Corpus Funds received after 01.04.2021</p>
-----	--	---

For Verma Mehta And Associates  
Chartered Accountants

CA SANDEEP VERMA  
Partner  
Membership No. 045711

UDIN:24045711BKIAGV1786

Date: 28/09/2024

Place: Mumbai



# एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई. 23382(मुंबई) दि. 8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd. 8.5.06

28 सितंबर 2024 को न्यासी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनईआईए ट्रस्ट के वार्षिक खातों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा पारित संकल्प

संकल्प:

"संकल्प किया गया कि न्यासी बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनईआईए ट्रस्ट के वार्षिक खातों को, जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए 31 मार्च 2024 तक की तुलन पत्र सहित आय एवं व्यय खातों को एतद्वारा अपनाया जाएगा।"

श्री सिद्धार्थ महाजन, ट्रस्टी .....

हस्ताक्षरित

श्रीमती हर्षा बंगारी, ट्रस्टी .....

हस्ताक्षरित

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, प्रबंध ट्रस्टी .....

हस्ताक्षरित



एन ई आई ए ट्रस्ट

N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2023-24, by the Board of Trustees on 28<sup>th</sup> September 2024

Resolution:

“RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2024 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2024 and Balance Sheet as on 31st March 2024, be and hereby adopted by the Board of Trustees.”

Shri Siddharth Mahajan, Trustee

*Siddharth Mahajan*

Smt. Harsha Bangari, Trustee

*Harsha Bangari*

Shri Sristiraj Ambastha, Managing Trustee

*S. Sristiraj Ambastha*



# एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए न्यासी मण्डल द्वारा 28 सितंबर 2024 को एनईआईए ट्रस्ट की संचित आय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा पारित संकल्प

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा 28 सितंबर 2024 को ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए पांच साल की अवधि, अर्थात् मार्च, 2029 तक एनईआईए ट्रस्ट की आय का संचय।

## संकल्प :

"संकल्प किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 31/03/2029 तक एनईआईए ट्रस्ट ("ट्रस्ट") की 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हुई आय में से शून्य रुपये की संचित राशि दर्शाई जाये एवं उसे अलग रखी जाये । "

"आगे संकल्प किया गया कि ट्रस्ट द्वारा अधिनियम की धारा 11(5) के अंतर्गत निवेश की स्वीकार्य पद्धति के अनुसार अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार से अर्जित आय शून्य रुपए को अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाएगा। "

श्री सिद्धार्थ महाजन, ट्रस्टी .....अज्ञात/अज्ञात

श्रीमती हर्षा बंगारी, ट्रस्टी .....अज्ञात/अज्ञात

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, प्रबंध ट्रस्टी .....अज्ञात/अज्ञात



# एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि. 8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the Accumulation of income of the NEIA Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) for the FY 2023-24 by the Board of Trustees on 28th September 2024

Subject: Accumulation of income of the NEIA Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2029 for utilization towards the specified objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) for the FY 2023-24 by the Board of Trustees on 28th September 2024.

## Resolution:

“RESOLVED THAT a sum of Rs Nil to be accumulated and set apart for utilization towards the specified objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) upto 31/03/2029 out of the income of the NEIA Trust (“The Trust”) for the year ended 31<sup>st</sup> March 2024 for the Objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).

“RESOLVED FURTHER THAT the Trust do invest the income so accumulated of Rs. Nil in Fixed Deposits with the Scheduled Banks being the permissible mode of investment u/s. 11(5) of the Act for a period not exceeding 5 years”

Shri Siddharth Mahajan, Trustee

*Siddharth Mahajan*

Smt. Harsha Bangari, Trustee

*Harsha Bangari*

Shri Sristiraj Ambastha, Managing Trustee

*S. Sristiraj Ambastha*





**SCHEDULE - VIII**  
**Rule 17(1)(c)**

Name of the Public Trust: NEIA Trust  
Balance Sheet As At: 31/03/2024

Registration No: C-23382

FUNDS & LIABILITIES	Amounts in Rs.	Amounts in Rs.	PROPERTY & ASSETS	Amounts in Rs.	Amounts in Rs.
<b>Trust Funds or Corpus :-</b> Balance as per last Balance Sheet Add: Fund received during the year	47,41,00,00,000 -	47,41,00,00,000	<b>Immovable Properties :-</b> Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less: Sales during the year Depreciation up to date		
<b>Other earmarked Funds :-</b> (Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the income) Depreciation Fund Sinking Fund Reserve Fund Any Other Fund- Special Reserve			<b>Investments :-</b>		
<b>Loans (Secured or Unsecured) :-</b> From Trustees From Others			<b>Furniture &amp; Fixtures :-</b> Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less: Sales during the year Depreciation up to date		
<b>Liabilities :-</b> For Expenses Contribution Due to Public Trust Administration Fund Provision for Pending Claims For Advances Guarantee Fees from ECGC Guarantee Fees from Others Guarantee Fees received in advance but not allocated Provision for refund of Eviction Guarantee Fee Advance Premium For Rent & Other Deposits For Sundry Credit Balances TDS Payable Legal Charges Payable Sundry Creditors Payable to ECGC	1,65,51,17,927 18,12,16,37,766 3,61,79,628 1,49,87,88,178 32,11,343 1,00,422 7,00,678 51,14,802 4,11,480 1,14,00,67,977		<b>Loans (Secured or Unsecured) - Goodwill/Int'l</b> Loans/Scholarships Other Loans		
<b>Income and Expenditure Account :-</b> Balance as per last Balance Sheet Less: Appropriations, if any	0 (52,70,74,90,676)		<b>Advances :-</b> To Trustees To Employees To Contractors To Lawyers To Others  Prepaid Taxes Prepaid expenses	4,89,83,92,198 7,67,46,541	4,97,51,39,179
<b>Add: Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account</b>	(9,32,74,834)	(9,32,74,834)	<b>Income Outstanding :-</b> Rent Interest Other Income		83,32,641
<b>Total</b>		<b>17,08,05,52,137</b>	<b>Cash and Bank Balances :-</b> (a) In Current Account with Union Bank of India  In Fixed Deposit Account with various banks  (b) With the Trustee  (c) With the Manager		25,15,50,798 11,84,57,00,000
<b>Total</b>		<b>17,08,05,52,137</b>	<b>Total</b>		<b>17,08,05,52,137</b>

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.

For NEIA TRUST

*S. Anandanki*

(Secretary/Ambedkar)  
Managing Trustee

*Sudhakar*

(Sudhakar Mahajan)  
Trustee

*Harsh*

(Harsh Sangari)  
Trustee

As per our report of even date:  
FOR VERMA MEHTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 112118W

*Verma*  
Sandeep Verma  
Partner - M. No. 047711

Date: 28/09/2024  
Place: Mumbai





**SCHEDULE - IX**  
**[ Vide Rule 17 (1) ]**

Name of the Public Trust : NEIA Trust  
Income and Expenditure Account for the year ending 31st Mar 2024

Registration No - E 23382

EXPENDITURE	Amounts in Rs	Amounts in Rs	INCOME	Amounts in Rs	Amounts in Rs
<b>To Expenditure in respect of properties :-</b>			<b>By Rent</b>		
Rates, Taxes, Census			Accrued		
Repairs and maintenance			Realised		
Salaries					
Insurance			<b>By Interest</b>		
Depreciation			Accrued On		
Other Expenses			Fixed Deposits	83,62,601	
To Establishments Expenses					
To Remuneration to Trustees			Realised On		
To Remuneration in the case of a mortg		8,09,354	Fixed Deposits	1,75,48,01,217	
To Consultancy Charges			TDN on Fixed Deposits	15,91,52,176	
<b>To Administrative expenses :</b>			Income Tax Refund	11,00,41,192	2,01,21,57,186
Administration Charges	5,97,26,311	81,81,54,587			
Contribution to Public Trust Administration Fund	75,84,28,286		On Loans		
			On Bank account		
To Legal Expenses		51,34,802	By Dividend		
To Claims Paid and Provision for Claims		37,20,96,21,719	By Donation or Cash or Kind		
To Audit Fees		1,47,500	By Grants		
To Bank Charges		52	By Income From Other Source (in details as far as possible)		
To Contribution and Fees			By Transfer from Reserve		
<b>To Amount Written Off-</b>					
Bad Debts			<b>By Guarantee Fees Received</b>		
Loans Scholarships			FCGC	1,65,45,933	
Irrecoverable Rents			Others	1,13,42,87,083	1,17,08,28,013
Other Items					
To Miscellaneous Expenses		44,294	By Claim Recovery		1,06,30,76,508
To Depreciations			By Reversal of Provision for claims		33,67,41,75,763
To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds					
			<b>To Deficit carried over to Balance Sheet</b>		<b>8,32,74,836</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38,83,39,12,307</b>	<b>TOTAL</b>		<b>38,83,39,12,307</b>

For NEIA TRUST

*S. Anantarkhi*

(Srinag Anantarkhi)  
Managing Trustee

*Sudhakar*

(Siddhant Mahajan)  
Trustee

*Shankar*

(Harsha Bhargava)  
Trustee

As per our report of even date,  
**FOR VERMA MEHTA & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No 112118W

*Verma*

CA Sandeep Verma  
Partner - M. No. 045711

Date : 28/09/2024  
Place : Mumbai



अनुसूची IX -बी

दिनांक 31/03/2024 को अन्ततः वर्ष के लिए संरक्षण के लिए उपरोक्ती सार्वजनिक ट्रस्ट की आय का विवरण

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम एवं पंजीकृत संख्या : **एनईए ट्रस्ट**

पत्र. नं.- 23382

		₹	₹
I	आय को आय एवं अन्य स्रोत (अनुसूची IX) में दर्शाया गया है		37,94,06,37,472
II	धारा 58 एवं विभाग 32 के अन्तर्गत संरक्षण के लिए उपरोक्त नहीं होने वाली आयें		
(i)	आय सार्वजनिक ट्रस्टों एवं धर्मार्थों से प्राप्त आय		
(ii)	सरकार एवं स्थानीय प्रशासकों से प्राप्त आय		
(iii)	आय अन्तर्गत आयदा सुव्यवस्था फंड पर आय		
(iv)	प्रतिनिधि विभाग के प्रयोगकर्ता हेतु आय की राशि		
(v)	विकासदाता हेतु आय की राशि		
(vi)	संग्रहों के लिए विकासदाता हेतु आय की राशि		
(vii)	अवकाश, मृत्यु, वादा, आय या अन्य प्राकृतिक अवकाश से उत्पन्न आय से उत्पन्न के लिए धन से किया गया आय		
(viii)	भूमि प्रयोग के लिए उपरोक्त की जाने वाली भूमि से आय में कटौती -		
(a)	भू-राजस्व एवं स्थानीय फंड उत्पन्न		
(b)	सर्विस चार्ज पर निर्धारित कर लेव किया		
(c)	भूमि भूमि या ट्रस्ट द्वारा खेती की जाती है, तो उपरोक्त की लागत		
(ix)	वै-भूमि प्रयोगों के लिए उपरोक्त की जाने वाली भूमि से आय में कटौती -		
(a)	सुव्यवस्था, उत्पन्न और अन्य सरकारी या अन्तर्निहित कर		
(b)	सर्विस चार्ज पर निर्धारित कर लेव भूमि किया		
(c)	सर्विस चार्ज		
(d)	भूमि के अन्तर्गत कर या 10 प्रतिशत पर आय		
(e)	विकास या लिए गए भूमि के अन्तर्गत कर या 4 प्रतिशत संरक्षण की लागत		
(x)	ऐसी आय के एक प्रतिशत या प्रतिभूमि, प्रतिवर्ष आय से आय के संग्रह या प्रति की लागत एवं की लागत आय का 1% 1,92,23,15,994	1,92,23,160	
(xi)	विकास या नहीं हो गईं आय देने वाले भूमि के संग्रह में आय के अन्तर्गत अनुसूचित अन्तर्गत प्रतिवर्ष कर या 10 प्रतिशत की कटौती		1,92,23,160
	संरक्षण के लिए उपरोक्त अन्तर्गत आय		37,92,14,14,312
	अवकाश की रशि धारा 58 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर या पर लागत की जाती है और अवकाश के लिए अन्तर्गत आय का 2% लेव होता है		75,84,28,286

"प्रतिनिधि विभाग जाना है कि उपरोक्त अनुसूची के अन्तर्गत सार्वजनिक कटौती का उद्देश्य आय, धर्मार्थ द्वारा किसी भी रशि का पूर्ण अन्तर्गत आर्थिक रूप से हो कर उपाय नहीं किया गया है, जिससे अनुसूची में प्रतिनिधि विभाग को कर या लेवनी कटौती का उपाय प्रदान है"

**हस्ताक्षरित** **हस्ताक्षरित** **हस्ताक्षरित**  
 (मुद्रित नाम) (निर्देशक/साक्षर) (सर्व सचिव)  
 अध्यक्ष ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्टी

इसकी एक प्रतिका की निर्देश के अनुसार,  
 सर्वोत्तम एवं सुव्यवस्था के लिए  
 सर्वोत्तम अवकाश  
 पत्र नं. नं. 112118W  
**हस्ताक्षरित**

सर्वोत्तम सर्वोत्तम  
 संख्या - पत्र. नं. 045711



SCHEDULE IX -C

Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2024

Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST

Regn. No. :- E 23382

		Rs.	Rs.
I	Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)		37,94,06,37,472
II	Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32		
	(i) Donations received from other public trust and Dharmads		
	(ii) Grant received from Government and local authorities		
	(iii) Interest on Sinking or Depreciation Fund		
	(iv) Amount spent for the purpose of secular education		
	(v) Amount spent for the purpose of medical relief		
	(vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals		
	(vii) Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity drought, flood, fire or other natural calamity		
	(viii) Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -		
	(a) Land revenue and Local Fund Cess		
	(b) Rent payable to superior landlord		
	(c) Cost of production if lands are cultivated by the trust		
	(ix) Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -		
	(a) Assessment, cesses and other Government or municipal taxes		
	(b) Ground rent payable to the superior landlord		
	(c) Insurance premia		
	(d) Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings		
	(e) Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out		
	(x) Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income		
	1% of Interest Income of Rs. 1,92,23,15,994	1,92,23,160	
	(xi) Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent		1,92,23,160
	Gross annual income chargeable to contribution		37,92,14,14,312
	Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution		75,84,28,286

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."

For NEIA TRUST

*S. Ambastha*

(Srinraj Ambastha)  
Managing Trustee

*Siddharth Mahajan*

(Siddharth Mahajan)  
Trustee

*Harsha Bangari*

(Harsha Bangari)  
Trustee

As per our report of even date,  
FOR VERMA MEHTA & ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No. 112118W

*CA Sandeep Verma*

CA Sandeep Verma  
Partner - M. No. 045711

Date : 28/09/2024  
Place : Mumbai



## अनुबंध क

### एन ई आई ए ट्रस्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

### क. पृष्ठभूमि

1. इस ट्रस्ट का निर्माण मध्यम एवं दीर्घआवधिक उच्च मूल्य की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एवं राष्ट्रीय हित वाली परियोजनाओं, जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं हो अथवा जिसकी लागत अत्यंत अधिक हो एवं जो अल्पावधि निर्यातों के लिए लाभकारी हो, के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ट्रस्ट के समझौते के अनुसार, ट्रस्ट को समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन करना होगा। तदनुसार भारत सरकार ( भा स ) द्वारा दिनांक 12.02.2009 को जारी संकल्प सं 616/2009- E&MDA के जरिये इसके लिए एक से अधिक उद्देश्यों का समावेशन किया गया जिसके अनुसार (1) माइक्रो , लघु एवं मध्यम उपक्रम ( एम एस एम ई ) निर्यातकों एवं कुछ विशेष व्यापार से जुड़े निर्यातकों जैसे टेक्सटाइल, आभूषण आदि जिन पर ईसीजीसी द्वारा बीमांकन किया गया है, के लिए 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बीमांकन किये गये बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा रक्षा ( ई सी आई बी ) के अधीन रक्षा प्राप्त बैंकों के लिए 10% की अतिरिक्त रक्षा।
2. एन ई आई ए का सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय , ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में दिनांक 8 मई 2006 को 21 मार्च 2006 के ट्रस्ट समझौते एवं दिनांक 21 मार्च 2006 को संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के जरिये भारत के राष्ट्रपति एवं ईसीजीसी लिमिटेड के बीच हुए संशोधित ट्रस्ट समझौते के जरिये पंजीकरण किया गया जिसकी पंजीकरण सं ई 23382 है। आगे , योजना आवेदन सं 7/2010 में सहा. आयुक्त, चैरिटेबल ट्रस्ट के आदेश के अनुसार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 50ए के अधीन अल्पावधि निर्यातों की सुविधा के लिए एक योजना निर्मित की गयी।



3. ट्रस्ट कार्यालय की स्थापना, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबन्धित संरचना सहित आरंभिक स्थापना के सभी लागत का व्यय ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वहन किया गया।

**ख. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :**

1. **मूलभूत लेखा नीति :-** वित्तीय विवरणों को प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर एवं भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. **अनुमानों का उपयोग :**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आर्येंगे ।

3. **राजस्व मान्यता :**

आयकर प्रतिदाय पर ब्याज के अलावा, ब्याज एवं अन्य आय की उपचयित आधार पर गणना की गयी है।

4. **गारंटी शुल्क (अन्य) लेखांकन**

भारतीय एक्जिम बैंक से ईसीजीसी लिमिटेड को समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष अवधि के लिए आनुपातिक तौर विभाजित किया गया।

5. **गारंटी शुल्क (ईसीजीसी) लेखांकन**

ईसीजीसी लिमिटेड को समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष आवधि के लिए आनुपातिक तौर विभाजित किया गया।

6. **दावों के कारण उत्पन्न देयता :**

वर्ष के अंत तक बकाया दावों के लिए देयता का निर्धारण, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अधिकतम जोखिम सीमा तक प्रदान किए दावों के आधार पर किया गया।



#### 7. कर निर्धारण के लिए प्रावधान

आयकर अधिनियम 1961 के अनुकरण में चालू लेखांकन अवधि के लिए कर योग्य लाभ की गणना के आधार पर कर हेतु प्रावधान किए गए। तथापि इसके लिए कृपया भाग ग के नोट 4, 5, 6 एवं 16 का संदर्भ लें।

#### 8. प्रशासनिक प्रभार

ट्रस्ट के प्रशासनिक एवं स्थापना लागत एवं इसकी योजनाओं से संबन्धित लागतों पर होने वाले व्ययों का वहन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिस पर वह सकल गारंटी शुल्क के 5% तक सेवा प्रभार प्राप्त करने के हकदार है। ईसीजीसी लिमिटेड को अदा किए जाने वाले ये प्रभार रक्षा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान मान्य होंगे।

#### ग. लेखों के भाग बनाने वाले नोट :

1. यह ट्रस्ट भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ( आई आर डी ए आई ) के पास पंजीकृत नहीं है। ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण के संबंध में आई आर डी ए आई को संप्रेषित किया गया है परंतु अभी तक इस संबंध में ट्रस्ट को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
2. ट्रस्ट ने गारंटी शुल्क की प्राप्ति पर ईसीजीसी लिमिटेड को कुछ बीमा रक्षाओं पर गारंटी प्रदान की है। इस संबंध में इस व्यवस्था के विषय में आई आर डी ए आई को सूचित किया गया है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से 1,65,45,933/- करोड़ रु का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ है जिसे पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क में से चालू वर्ष के लिए आबंटित कर दिया गया है। इस राशि का उल्लेख आय एवं व्यय खाते में अलग से किया गया है।
3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950, की धारा 58 के प्रावधानों के अधीन , ट्रस्ट को अधिनियम की अनुसूची IXC के अधीन दर्शाई गई आय के 2% को सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में अंशदान करना होगा। किसी अन्य ट्रस्ट द्वारा इस कथित प्रावधान को चुनौती दी गयी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संबन्धित ट्रस्ट के पक्ष में इस पर रोक लगाने के आदेश दिये गए। जहां तक एन ई आई ए ट्रस्ट का सवाल है , 31 मार्च 2024 को इसके द्वारा



सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि को देय कुल 1,65,51,17,927/- की राशि ( चालू वर्ष में 75,84,28,286/- रु सहित ) का प्रावधान किया गया है एवं अब तक इस संबंध में लंबित अंतिम निर्णय को देखते हुए कोई अंशदान नहीं किया गया है।

4. क) ट्रस्ट के आय कर मूल्यांकन अवलोकन:

- मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 तक आय में बिना किसी समायोजन / परिवर्धन के पूरे कर लिए गए हैं।
- मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 से लेकर 2017-18 एवं 2019-2020 : तक आय कर अधिनियम 1961 की धारा 11 (अधिनियम) के अधीन ट्रस्ट द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 से छूट के अनुरोध को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि ट्रस्ट का उद्देश्य वर्ष 2009 में " चैरिटेबल उद्देश्य " की परिभाषा के उपरांत चैरिटेबल नहीं है।
- मूल्यांकन वर्ष 2018-19 एवं 2022-23 : के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 11 के अधीन ट्रस्ट के उद्देश्य को चैरिटेबल मानते हुए छूट को स्वीकार कर लिया गया।
- मूल्यांकन वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 : के लिए ट्रस्ट की आय को बिना किसी जांच मूल्यांकन के प्रतिफल मान लिया गया है।
- मूल्यांकन वर्ष 2023-24 : अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन जांच मूल्यांकन के लिए मामले का चयन कर लिया गया है।

(ख) हालांकि ट्रस्ट द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अधीन "साधारण सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य को पूरा करने की गतिविधि" के अधीन लाभ के लिए अपनी पात्रता को बनाए रखा है, एहतियातन, ट्रस्ट के द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए अपनी आय की गणना के आधार पर अग्रिम कर की अदायगी की जा रही है।



(ग) मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से आयकर मूल्यांकन की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :

मूल्यांकन वर्ष	विवरण
2010-11 से 2017-18 एवं 2019-20	आईटीएटी द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया गया है, विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गयी है, जो अभी प्रवेश-पूर्व चरण में है।
2018-19	दिनांक 19.04.2021 के मूल्यांकन आदेश द्वारा धारा 11 में छूट की अनुमति प्राप्त हुई।
2020-21	किसी प्रकार के जांच मूल्यांकन न होने के कारण धारा 11 के अधीन छूट
2021-22	किसी प्रकार के जांच मूल्यांकन न होने के कारण धारा 11 के अधीन छूट
2022-23	दिनांक 08.03.2024 के मूल्यांकन आदेश द्वारा धारा 11 में छूट की अनुमति प्राप्त हुई।
2023-24	धारा 143(3) के अंतर्गत जांच मूल्यांकन हेतु मामला चयनित।

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अगले 5 वर्षों के भीतर उपयोग के लिए किसी प्रकार के आय का संचय नहीं हुआ अतः, यदि पांचवें वर्ष आय अप्रयुक्त रहती है, तो उसे अप्रयुक्त आय नहीं माना जाएगा।
- वित्त अधिनियम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सृजित कृत्रिम आय के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन संचय आवश्यक है एवं तत्पश्चात पांच वर्षों के भीतर ऐसी निधियों के उपयोग करने की बाध्यता है, जिसके दौरान संबन्धित निधियों को सावधि जमा में रखा जाना अनिवार्य है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, एनईआईए ट्रस्ट के नियुक्त कर सलाहकार के साथ उचित परामर्श के उपरांत एनईआईए ट्रस्ट की कर योग्य आय की गणना का आधार, पहले की अपनाई गई प्रथा से, बदल दिया गया है।



वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 11 के संशोधित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तथा एनईआईए ट्रस्ट के ट्रस्ट समझौते के वर्तमान प्रावधान पर विचार करते हुए, ट्रस्ट की कर योग्य आय की गणना के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को बदलने का औचित्य निम्नलिखित आधार पर आधारित है।

वित्त अधिनियम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से निम्नलिखित संशोधन किए गए :

(क) पिछले वर्ष की आय के अतिरिक्त अनुप्रयोग को आगे ले जाने एवं भविष्य के वर्षों के लिए लागू की जाने वाली आय पर निर्धारित करने की अनुमति नहीं है। इसका असर एन ई आई ए ट्रस्ट पर पड़ा, क्योंकि पिछले सभी वर्षों की आय के अतिरिक्त अनुप्रयोग "व्यपगत" हो गए। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कुल अनुप्रयोग 1,714.07 करोड़ रुपये के आय का अतिरिक्त अनुप्रयोग किया गया, जो कानून में संशोधन के कारण समाप्त हो गया।

(ख) आय के अनुप्रयोग को केवल भुगतान के आधार पर अनुमति दी जाएगी अतः, दावों के निपटान के लिए प्रदान की गई राशि को तब तक प्रयुक्त करने अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। इसके कारण एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए "असंतुलित समय" निर्मित होता है।

(ग) समय अनुदान के रूप में प्राप्त राशि, जिस पर पूर्व में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, अब उसे सावधि जमा में रखा जाना अनिवार्य है। इससे एनईआईए ट्रस्ट प्रभावित हुआ है, क्योंकि यदि दावों के भुगतान के लिए समय अनुदान का उपयोग किया जाये तो समय अनुदान को आय माना जाएगा एवं 'दावों का भुगतान' भी आय में शामिल हो जाएंगे, जो दोनों निष्प्रभावी हो जाएंगे।



वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधनों के प्रभाव के परिणामस्वरूप धारा 11 (2) के अधीन आय का संचय हुआ, जिसे अगले पांच वर्षों में व्यय करना आवश्यक है तथा इसे सावधि जमा हेतु निर्धारित करना होगा। यदि संशोधन नहीं हुए होते, तो इन वर्षों के लिए किसी भी प्रकार के संचय की आवश्यकता नहीं होती।

ट्रस्ट समझौते के खंड 4 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(क) समय निधि के निवेश से उत्पन्न प्रत्येक आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, तथा किसी भी वर्ष विशेष में किए गए अधिशेष अथवा बचत को ट्रस्ट की समय निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

(ख) इस योजना के अधीन गठित निदेशकों की समिति के अनुमोदन के अनुसार इस योजना के अधीन ऋण जोखिम के जोखिमों को स्वीकार करने एवं उनका बीमांकन करने के उद्देश्य से , निपटानकर्ता इस बात से सहमत हैं कि उनके द्वारा ट्रस्ट के तत्कालीन वर्तमान समय निधि के बीस गुना के अधिकतम स्तर तक, कि इस योजना के तहत दावों के भुगतान के लिए ट्रस्ट पर देयता के हस्तांतरण की स्थिति में ट्रस्ट के तत्कालीन उपलब्ध निधि से अधिक की देयता को पूरा करने हेतु आवश्यक निधियों योगदान किया जाएगा।

उक्त को देखते हुए , केवल दावों के की अदायगी के लिए कोष का उपयोग किया जाना होगा। हालाँकि, कानून में बदलाव के साथ, यदि दावों के भुगतान के लिए कोष का उपयोग किया जाता है, तो कोष की राशि को आय माना जाएगा एवं दावों की अदायगी आय का प्रयोग मानी जाएगी , जिससे प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा।



उक्त तथ्यों को देखते हुए तथा कानून में हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही दावों की अदायगी के लिए केवल समय के उपयोग पर प्रतिबंध, तथा अप्रयुक्त हिस्से को सावधि जमा में निवेश करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई गई है:

(क) सावधि जमा संचालन को आय का अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा, जिससे एक वर्ष के दौरान उसके अधिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगति से बचा जा सकेगा, जिसे भविष्य में आय पर समायोजन से भी बचा जा सकता है।

(ख) इस संशोधन से एनईआईए ट्रस्ट की कुल आय की अधिक सटीक तस्वीर उपलब्ध होगी, क्योंकि यह न केवल कृत्रिम आय, जिसके लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन संचय की आवश्यक है तथा पांच वर्षों के भीतर ऐसी निधि के उपयोग करने की बाध्यता है, जिसके दौरान उन्हें सावधि जमा में रखा अनिवार्य है, को रोकने में सहायक होगा।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आय की गणना की गई है तथा मूल्यांकन वर्ष 2022-23 एवं मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के दौरान संचित प्रत्येक प्रकार की आय का उपयोग किया गया है। तथा वर्तमान में उपयोग के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त संचय लंबित नहीं है।

इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान समय निधि में से 465.45 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

7. लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में लेखा परीक्षा शुल्क 1,00,000 रुपये एवं कर लेखा परीक्षा शुल्क 25,000 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) शामिल हैं।

8. ट्रस्ट के लिए विशेष रूप से किए गए व्यय जैसे परामर्श सेवा शुल्क, कानूनी शुल्क, विविध व्यय तथा मुद्रण व स्टेशनरी जिसके लिए ट्रस्ट के नाम पर चालान भी प्राप्त हुए हैं, को इसके आय व व्यय खाते में डेबिट किया गया है।



9 चालू वर्ष के दौरान, सावधि जमा पर 192.23 करोड़ रुपये की ब्याज अर्जन को आय एवं व्यय खाते में उपार्जन आधार पर दर्ज किया गया है, तथापि ट्रेसेस (टीडीएस सुलह विश्लेषण एक सुधार सक्षम प्रणाली) के 26एस के अनुसार 191.28 करोड़ रुपये की ब्याज आय परिलक्षित हुई है। यह अंतर इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक बैंक द्वारा स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के लिए ब्याज राशि की गणना एवं रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाया जाता है।

10 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा घाना, श्रीलंका, जाम्बिया एवं सूरीनाम को दी गई खरीदार ऋण-एनईआईए सुविधाओं पर 1,907.80 करोड़ रुपये की राशि के 9 दावों की अदायगी की गयी है। सभी दावों की अदायगी निदेशकों की समिति (सीओडी) की मंजूरी मिलने के उपरांत की गयी है।

11 ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकार के दावों के लिए 1,813.16 करोड़ रुपये की राशि के लंबित दावों के लिए भी प्रावधान किया गया है:

(क) जोखिम की साझेदारी व्यवस्था के अधीन एमएलटी योजना के अंतर्गत ईसीजीसी द्वारा भुगतान किए गए दावों का हिस्सा

(ख) खरीदार ऋण रक्षा के लिए एक्जिम बैंक का दावा।

12 वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के वित्तीय विवरण चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे ट्रस्ट के कार्यालय में विधिवत दर्ज किए गए हैं।

13. प्रबंधन द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के साथ उनके पंजीकरण के संबंध में पुष्टि मांगी है। दो



संस्थाओं जेसीआर एंड कंपनी एलएलपी तथा जलाराम कॉपी सेंटर द्वारा अधिनियम के अधीन अपने पंजीकरण की पुष्टि की गयी है।

14. 31 मार्च, 2024 तक कुल आकस्मिक देयता 16,584.56 करोड़ रुपये रही , जिसमें ट्रस्ट द्वारा 4951 करोड़ रुपये के जोखिम मूल्य रक्षा हेतु ईसीजीसी लिमिटेड को दी गई गारंटी, 10650 करोड़ रुपये के जोखिम मूल्य रक्षा हेतु एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया को दी गई गारंटी तथा कुल आयकर देयता 605.10 करोड़ रुपये (निम्न तालिका के अनुसार) शामिल हैं, जहां अपील माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार की गई हैं/प्रवेश-पूर्व चरण में हैं। 16,584.56 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता में रक्षा सं 1421/12 तथा 1422/12 के लिए ईसीजीसी द्वारा जारी कुल 378.46 करोड़ रु की रक्षा भी शामिल है। ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षा सं 1421/12 तथा 1422/12 में एनईआईए के साथ 75% जोखिम साझा किया गया था। रक्षा सं 1421/12 और 1422/12 के अधीन दावों को खारिज कर दिया गया एवं तत्पश्चात ईसीजीसी द्वारा रक्षाओं को बंद कर दिया गया। वर्तमान में, रक्षा सं 1421/12 एवं 1422/12 के अधीन दावों से संबंधित मुद्दे न्यायालय में लंबित हैं।

क्र सं .	मूल्यांकन वर्ष	रु करोड़ में
1	2010-11	72.80
2	2011-12	70.84
3	2012-13	36.89
4	2013-14	37.59
5	2014-15	46.97
6	2015-16	43.40
7	2016-17	62.44
8	2017-18	65.46
9	2019-20	168.70
	कुल	605.10



15. दावों की अदायगी एवं प्रावधानों के कारण, 31.03.24 तक ट्रस्ट की समय निधि समाप्त हो गयी। तथापि, चूँकि वर्तमान कुल देयता धारणीय सीमा समय निधि के 20 गुना है एवं भारत सरकार ट्रस्ट की स्थापनाकर्ता है, अतः खाते चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं।

16. शुद्ध घाटे के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
(सृष्टिराज अंबष्ठ)	(सिद्धार्थ महाजन)	(हर्षा बंगारी)
प्रबंध ट्रस्टी	ट्रस्टी	ट्रस्टी

दिनांक: 28/09/2024

स्थान: मुंबई



**NEIA TRUST****FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024****A. BACKGROUND**

1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium and long term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short -term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewelry, etc. underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC Ltd.
2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8<sup>th</sup> May, 2006 with registration no: - E 23382 vide trust deed dated 21<sup>st</sup> March, 2006 and modified trust deed dated 8<sup>th</sup> March, 2010 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
3. All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.

**B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

1. **Basis of Accounting:** The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.
2. **Use of estimates:**

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.



**3. Revenue Recognition:**

Interest and other income is accounted on accrual Basis except for interest on Income tax refund.

**4. Guarantee Fee (Others) Accounting:**

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

**5. Guarantee Fees (ECGC) Accounting:**

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

**6. Liability on account of claims:**

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided by ECGC Limited maximum to the extent of exposure.

**7. Provision for Taxation**

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 4,5,6 and 16 of Part C.

**8. Administrative Charges**

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5% of the gross guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized over the period of the covers.

**C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:**

1. The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust has written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has not received Guarantee Fee from ECGC Limited. The total guarantee fee income from ECGC for the current year is Rs.1,65,45,933/- which is allocated for current year out of the advance guarantee fee received during the previous years. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule



Handwritten signature or initials.

IXC of the Act. Another Trust had challenged the said provision and the Hon'ble Supreme Court issued a Stay order in favor of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2024 it holds provision amounting to Rs.1,65,51,17,927/- payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision Rs.75,84,28,286 /- and towards which no contribution is yet made pending final judgment on the said matter.

4. a) Income Tax Assessment Overview

- Up to AY 2009-2010: The Trust's income tax assessments were completed without any adjustments.
- AY 2010-2011 to 2017-18 and 2019-20: The Assessing Officer (AO) denied the exemption claimed under Section 11 of the Income Tax Act, 1961, arguing that the Trust's objects were not charitable after the definition of "charitable purpose" was amended from 01.04.2009.
- AY 2018-19 and 2022-23: The AO allowed the exemption under Section 11, recognizing the Trust's objects as charitable.
- AY 2020-21 and 2021-22: The Trust's income was accepted as returned without any scrutiny assessment.
- AY 2023-24: The case is selected for scrutiny assessment under Section 143(3) of the Act.

b) Although the Trust maintains it is eligible for the exemption under Section 11 as engaged in the "advancement of the objects of general public utility", as a precaution, it has been paying advance tax based on its income computations from AY 2015-16 to AY 2024-25.

c) The status of year-wise Income Tax assessments since AY 2010-11 is as under:

AY	Particulars
2010-11 to 2017-18 and 2019-20	ITAT has ruled in favour of the Trust, but the Department has appealed to the High Court, which is at pre-admission stage.
2018-19	Section 11 exemption allowed vide assessment order dated 19.04.2021.
2020-21	Exemption under Section 11 allowed as no scrutiny assessment.
2021-22	Exemption under Section 11 allowed as no scrutiny assessment.
2022-23	Section 11 exemption allowed vide assessment order dated 08.03.2024.
2023-24	Case selected for scrutiny assessment under Section 143(3).

5. In terms of the provision of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, there was no accumulation in Financial Year 2018-19 for utilization within next 5 Years and hence, question of deemed income in the fifth year, if remain unutilized does not arise.



Handwritten signature or initials.

6. The Finance Act has amended Section 11 of the Act from FY 2021-22, which has resulted in creation of artificial income that would require accumulation under section 11(2) of the Act and the subsequent obligation to utilize such funds within five years, during which they must be placed in fixed deposits.

In view of this, the basis of computing taxable income of the NEIA trust has been changed from the earlier adopted practice subsequent to the due consultation with the appointed tax consultant of the NEIA trust

Taking into account the revised provision of section 11 of the Income Tax Act as amended by Finance Act from FY 2021-22 and considering the extant provision of NEIA trust vide its trust deed, the rationale for changing the methodology adopted for computing the taxable income of the Trust rests upon following basis.

*The Finance Act brought following changes from FY 2021-22*

- (a) *Excess application of income of preceding year(s) is not allowed to be carried forward and set off against the income to be applied for future years. This impacted NEIA Trust, as all the preceding years excess application of income got "lapsed". For FY 2018-19 to FY 2020-21, the excess application of income was INR 1,714.07 crores which lapsed on account of change in law.*
- (b) *Application of income to be allowed only on payment basis and hence, the amount provided towards settlement of claims is not allowed as an application unless and until the same is paid. This creates "time mismatch" for NEIA Trust.*
- (c) *The amount received as corpus donations, which previously had no restrictions, must now be kept in fixed deposits. This has impacted the NEIA Trust because, if corpus donations are used for making claims payment, corpus shall be considered as an income and 'claims paid' as an application of income, which shall neutralise both.*

*The impact of change for FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24 resulted in accumulation of income under section 11(2), which requires to be spent in the next five years and requires to be earmarked against fixed deposit. Had the changes would not have been made, then, for these years there would not have been any accumulation required.*

*The Trust deed vide Clause 4 provides:*

- (a) *All incomes arising out of investments of the corpus fund shall be made available for expenditure towards fulfilling the objects of the Trust, and the surplus or savings effected in any year shall be transferred to the corpus of the Trust.*
- (b) *In consideration of the Trust accepting and underwriting credit risk exposures under this Scheme as per the approvals of the Committee of Directions constituted under this Scheme up to an aggregate level not exceeding twenty times the then existing corpus of the Trust, the Settlers agree that in the event of devolution of liability on the Trust for payment of claims under this Scheme in excess of the then extant funds of the Trust, shall contribute such amounts to the fund as may be necessary to meet the liabilities under this Scheme.*

*In light of the above, it is taken that the corpus must be used for the payment of claims. However, with changes in the law, if corpus is used for payment towards claims paid, the amount of corpus will be considered as an income and claims paid as an application of income, which shall neutralise the impact.*



RTU

Considering the above facts and taking into account the change in law, along with the restriction on the use of corpus funds solely for the payment of claims, and the requirement to invest the unused portion in fixed deposits, the following methodology is adopted:

- (a) the movement of fixed deposits is not considered as an application of income, which will avoid the mismatch that arises due to excess utilization in one year, which cannot be set off against future income.
- (b) The change will present a more accurate picture of the total income of the NEIA Trust, as it will prevent the creation of artificial income that would require accumulation under section 11(2) of the Act and the subsequent obligation to utilize such funds within five years, during which they must be placed in fixed deposits.

Considering the above facts the computation of income is prepared and all the income accumulated in AY 22-23 and AY 23-24 stands utilised. And there is no further accumulation pending for utilization.

Also Rs 465.45 crores have been utilised out of the Corpus Funds during the current year.

7. Auditor's remuneration includes Audit Fees Rs 1,00,000 and tax audit fees Rs 25,000 (excluding GST).
8. Expenses specifically incurred for the Trust such as Consulting Charges, Legal Charges, Miscellaneous Expenses and Printing & Stationery for which invoices have also been received in the name of the Trust have been Debited to its Income & Expenditure Account.
9. During the current year, interest income of Rs. 192.23 Crore on fixed deposits is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis a Correction Enabling System) interest income of Rs. 191.28 Crore is reflected. The difference is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating and reporting the interest amount for deduction of tax at source (TDS).
10. During the financial year 2023-24, the Trust has paid 9 claims amounting to Rs.1,907.80 crore on Buyer's Credit- NEIA facilities extended to Ghana, Sri Lanka, Zambia and Suriname. All claims have been paid after obtaining the approval of the COD.
11. The Trust has also made provision for pending claims amounting to Rs.1,813.16 crore for the following types of claims:
  - (a) Share of claims paid by ECGC under MLT Scheme under risk sharing arrangement
  - (b) Claim of EXIM Bank for Buyers Credit Covers.
12. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2022-23 have been duly filed with the office of charity commissioner, Bombay Trust.



Handwritten signature or initials.

13. The management has asked for confirmation from its suppliers regarding their registration with competent authorities under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED). Two entities viz. JCR & CO. LLP and JALARAM COPY CENTRE have confirmed their registration under the act.
14. The Contingent Liability as at March 31, 2024 amounts to Rs 16,584.56 Crore which includes Guarantees given by the Trust to ECGC Limited for risk value cover of Rs. 4951 Crore, Guarantees given to EXIM Bank of India for risk value cover of Rs. 10650 Crore and aggregate Income Tax liability Rs. 605.10 crores (as per the table below) where the appeals are admitted/ in pre-admission stage before the Hon. Bombay High Court. Contingent Liability of Rs. 16,584.56 Crore also includes an amount of Rs.378.46 Crore against the cover no. 1421/12 & 1422/12. Cover 1421/12 & 1422/12 were issued by ECGC with 75% risk sharing with NEIA. The claims under 1421/12 & 1422/12 were rejected and subsequently covers were closed by ECGC. At present, the issue pertaining to claims under covers 1421/12 & 1422/12 is pending at Court.

Sr. No.	AY	Rs. in crores
1	2010-11	72.80
2	2011-12	70.84
3	2012-13	36.89
4	2013-14	37.59
5	2014-15	46.97
6	2015-16	43.40
7	2016-17	62.44
8	2017-18	65.46
9	2019-20	168.70
	<b>Total</b>	<b>605.10</b>

15. Due to the claims payment and provisions, the Corpus of the Trust has been eroded as on 31.03.24. However, as the current aggregate liability assumption limit is 20 times the Corpus and the Government of India is the settlor of the Trust, the accounts of have been prepared on a Going Concern Basis.

16. No provision for tax is made during this financial year on account of the net deficit.

For NEIA TRUST

*S. Ambastha*

(Sristiraj Ambastha)  
Managing Trustee

*Siddharth Mahajan*

(Siddharth Mahajan)  
Trustee

*Harsha Bangari*

(Harsha Bangari)  
Trustee

Date: 28/09/2024

Place: Mumbai



पावती सं : 542959630290924

फॉर्म सं . 10बी

[नियम 16सी सी एवं 17बी देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 शर्त (23सी) के दसवें परंतुक की शर्त (ख) एवं धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) की शर्त (ii) के अधीन, किसी निधि अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2024 तक एन ई आई ए ट्रस्ट [निधि अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था का नाम] के तुलन पत्र की जांच की है एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता अथवा लाभ एवं हानि खाता उक्त फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा बनाए गए खाता बहियों के अनुरूप है।

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

हमारी राय में, अनुलग्नक के क्रम संख्या 14 में उल्लिखित पते पर उपर्युक्त निधि अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के पंजीकृत कार्यालय में उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं:

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुलग्नक में दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों अथवा योग्यताओं के अधीन सत्य एवं सही हैं-

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार, उक्त खातों में सही तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की गयी है -

- (i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2024 तक उपर्युक्त निधि अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के मामलों की स्थिति; तथा
- (ii) आय तथा व्यय खाते अथवा लाभ व हानि खाते के मामले में, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान आय तथा प्रयोग अथवा लाभ अथवा हानि की स्थिति।

निम्नलिखित अवलोकनों/योग्यताओं के अधीन-  
निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

#### उत्पावशरित

सनटी लेखाकर का नाम	संदीप वर्मा
सदस्यता सं	ARCA045711
फार्म पंजीकरण सं	0112118W
पता	मुंबई
आई पी पता	106.220.181.170
स्थान	मुंबई
तारीख	29-09-2024



Acknowledgement Number:542959630290924

## FORM NO. 10B

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of subsection (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.

We have examined the balance sheet of Neia Trust [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at 31-Mar-2024 and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.

We have obtained all the information and explanations to the best of our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure:

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications:-

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on 31-Mar-2024; and
- (ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application or profit or loss of its accounting year ending on 31-Mar-2024.

Subject to the following observations/qualifications-

The prescribed particulars are annexed hereto.

Name of Chartered Accountant  
Membership Number  
Firm Registration Number  
Address  
IP Address  
Place  
Date



Sandeep Verma  
ARCA045711  
0112118W  
Mumbai  
106.220.181.170  
Mumbai  
29-Sep-2024



**ANNEXURE**  
Statement of particulars

Basic Details	1.	PAN of the auditee	AAATN9999F				
	2.	Name of the auditee	Nela Trust				
	3.	Assessment year	2024-25				
	4.	Previous year	01-APR-2023 to 31-MAR-2024				
	5.	Registered Address of the auditee	ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri (West), Mumbai 400069				
	6.	Other addresses, if applicable					
	7.	Type of the auditee	Trust				
	8.	Whether the auditee is established under an instrument	Yes				
Registration Details	9.	Details of registration/provisional registration or approval/ provisional approval or notification of the auditee under the Income-tax Act (Details of all the registration/provisional registration/approval/ notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration/approval after provisional registration/approval the details of provisional registration/approval need not be provided)					
		Section under which registered/provisionally registered or approved/ provisionally approved/ notified	Date of registration/provisional registration or approval/ notification	Registration/Approval/ Notification/ Unique Registration No. (URN), if available	Authority granting registration/provisional registration or approval/ notification	Date from which registration/provisional registration/ approval/ notification is effective	
Management		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Clause (i) of section 10 of the Act	24-Sep-2021	AAATN9999FE2007601	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax	01-Apr-2021	
10.	(a)	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/ Trustee (s)/ Members of society/ Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) of the auditee at any time during the previous year					



S. No.	Name of person	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID Code	Address	Whether there is any change in relation during previous year of audit	If yes, specify the change
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	M.s. Harsha Bangar	Trustee		AABPR2058A	PAN	Ex-Im Bank Of India Centre-1 Bldg. Flr-21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai, Colaba S.O, MUMBAI, Maharashtra, INDIA, 400005	Yes	No
2	Shri Sridharj Ambastha	Trustee		AAAPR9342B	PAN	ECGC Bhawan, C15 No. 393, 393/1-45, MV Road, Andheri (E), Mumbai, Andheri East S.O, MUMBAI, Maharashtra, INDIA, 400069	Yes	Yes
3	Shri Siddharth Mahajan	Trustee		AGVPM4764D	PAN	Department Of Commerce, Government Of India, Udyog Bhawan, Udyog Bhawan, Udyog Bhawan, CENTRAL DELHI, Delhi, INDIA, 110011	Yes	Yes

(b) In case if any of the persons [as mentioned in row 10(a)] is not an individual, then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the previous year.

Sl. No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Non-individual person (as mentioned in row no 10(a)) in which beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership	Whether there is any change during previous year of audit	If yes, specify the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	No Records Available							

11.	Objects of the auditee	Advancement of any other objects of general public utility
12.	(i) Whether the auditee, being a trust or institution referred to in section 11 or 12, has adopted or undertaken modification of the objects which do not conform to the conditions of registration?	No
	(ii) If yes, please furnish following information:-	
	(A) Date of such modification/ adoption	
	(B) Whether an application for registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days from the date of said adoption or modification, as per sub-clause (v) of	



		clause (ac) of sub-section (1) of section 12A.		clause (ac) of sub-section (1) of section 12A			
		If yes provide the following details regarding application for registration under sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A		If yes provide the following details regarding application for registration under sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A			
		S. No.	Date of Application	Status of registration in pursuance of application	Date of Registration or cancellation based on such application	URN of such registration	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
13.	Commencement of activities	No Records Available					
		(i)	Where the auditee has been granted provisional registration or provisional approval, whether activities have commenced during the previous year				No
		(ii)	If yes in 13 (i), date of commencement of activities				
		(iii)	If the answer to 13(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?				
		(iv)	If yes in 13(iii) above, provide the following details regarding application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (iii) of the first proviso to Clause (23C) of section 10 has been filed?				
14.	Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained	S. No.		Date of Application	Status of registration in pursuance to application	Date of Registration /Cancellation based on such application	URN of such registration
		No Records Available					
	Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained	(i)	Whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee				Yes
		(ii)	Provide the following details of the books of account and other documents				



Handwritten signature or mark.



Acknowledgement Number: 542959630290924

S. No.	Nature of Books of Account	Whether maintained by the auditee	Whether maintained in a computer system	Whether maintained at registered office	If maintained at any place other than the registered place			Whether the books of account have been audited		
					Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Whether intimated to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (3) of rule 17AA			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)	(9)
1.	Cash book	Yes	Yes	Yes						Yes
2.	Ledger	Yes	Yes	Yes						Yes
3.	Journal	Yes	Yes	Yes						Yes
4.	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	Yes	Yes	Yes						Yes
5.	Original bills whenever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	Yes	Yes	Yes						Yes
6.	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected	Yes	Yes	Yes						Yes
7.	Record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives	Yes	Yes	Yes						Yes
	Record of income of the person	Yes	Yes	Yes						Yes



S. No.	Nature of Books of Account	Whether maintained by the auditee	Whether maintained in a computer system	Whether maintained at registered office	If maintained at any place other than the registered place				Whether the books of account have been audited
					Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Whether intimated to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (2) of rule 17AA	Date of intimation to Assessing Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)	(9)
9.	Record of application of income etc. out of income during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(ii)	Yes	Yes	Yes					Yes
10.	Record of application of income out of the previous year preceding the current previous year as per rule 17AA(1)(d)(iv)	Yes	Yes	Yes					Yes
11.	Record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule 17AA(1)(d)(v)	Yes	Yes	Yes					Yes
12.	Record of specified persons as per rule 17AA(1)(d)(vi)	Yes	Yes	Yes					Yes

15.	Where, in any of the projects/institutions run by auditee, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-	
(A)	Whether any activity is being carried on by the auditee which is in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to clause (15) of section 2?	No
(B)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts	%
(C)	Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility	



Advs	(D)	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to clause (15) of section 2?	No	
	(E)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts	%	
	(F)	Whether such activity of rendering service is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility		
16.	If 'A' or 'D' in 15 is Yes, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that project/institution			
	S. No.	Name of Project/Institution	Amount of aggregate annual receipts from activities referred in 15A and 15D (In Rs.)	
	(1)	(2)	(3)	
	Total		0	
	No Records Available			
Business Undertaking	17.	(i)	Whether the auditee has any business undertaking as referred to in sub-section (4) of section 11	No
		(ii)	If yes, then provide the following details of the business undertaking:	
		(a)	Nature of Business Undertaking	
		(b)	Business code	
		(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business undertaking <refer note^>	
		(d)	Income from the business undertaking for the previous year which is not to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11	₹
	(e)	Income from the business undertaking for the previous year which is to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11	₹	
Business Incidental to Objects	18.	(i)	Whether the auditee has any income being profits and gains from any business as referred in seventh proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (4A) of section 11, as the case may be	No
		(ii)	If yes, then provide the following details of such business:	
		(a)	Nature of Business	
		(b)	Business code	
		(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business <refer note^>	
		(d)	Whether the business is incidental to the attainment of the objects of the auditee	
		(e)	Profits and gains from the business during the previous year	



S. No.	Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source (In Rs.)	Amount of tax deducted at source	Section under which tax has been deducted at source	Category of income/receipt			Income/receipt in column 7 or 8 which is from business incidental to the attainment of the objects of the auditee. (In Rs.)	Whether separate books of account have been maintained for activities which is mentioned in column 10
						Trade, commerce or business (Rs.)	Activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business (Rs.)	Others (specify the nature) (Rs.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	Details of the receipts of the auditee on which tax has been deducted at source referred to in sections 194C or 194J or 194H or 194Q:									
20.	Whether the provisions of twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable. <b>No</b>									
21.	Whether auditee has filed Form No. 10BD for the previous year < If No then skip to row 23 > <b>No</b>									
22.	Total Sum of donations reported in Form No. 10BD furnished by the auditee for the previous year <b>₹</b>									
23.	Donations not reported in Form No 10BD /Not required to fill Form No. 10BD									
(i)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which is approved under clause (b) of sub-section (2) of section 80G <b>₹ 0</b>									
(ii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which qualifies for deduction under section 80G (other than those donations qualifying under clause (b) of sub-section (2) of section 80G or sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G ) <b>₹ 0</b>									
(iii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee approved under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G and which are not eligible under sub-section (5) of section 80G									
(a)	Cash donations exceeding Rs 2000 <b>₹ 0</b>									
(b)	Donations received from other charitable trusts and institution or from any fund or institution or trust or any university or other educational institutions or any hospital or other medical institution not eligible for deduction <b>₹ 0</b>									
(c)	Others (Specify the nature) <b>₹</b>									
(d)	Total (a)+(b)+(c) <b>₹ 0</b>									
(iv)	Donations which could not be reported in Form No 10BD due to non-availability of identification of donor as required under Form No 10BD <b>₹ 0</b>									
(v)	Donations received in kind									
(vi)	Anonymous Donations referred to in section 115BBC									



**Acknowledgement Number:542959630290924**

	(a)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (i) of sub-section (1) of section 115BBC	₹ 0
	(b)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (a) of sub-section (2) of section 115BBC	₹ 0
	(c)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (b) of sub-section (2) of section 115BBC	₹ 0
	(d)	Other anonymous donations taxable @ 30 % under section 115BBC	₹ 0
	(e)	Total (a+b+c+d)	₹ 0
(vii)		Any other voluntary contribution not part of Form No. 10BD, Please specify the nature	₹
(viii)		Total donation not reported in form No. 10BD [23(i)+23(ii)+23(iii)(d) +23(iv)+23(v)+23(vi)(e)+23(vii)]	₹ 0
24.		Total voluntary contributions received by the auditee during the previous year [22+23(viii)]	₹ 0
25.		Total Foreign Contribution out of the total voluntary contributions stated in 24	₹ 0
26.		Voluntary Contribution forming part of Corpus (which are included in 24)	₹ 0
(A)		Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G eligible for exemption under Explanation 1A to the third proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3A to sub-section (1) of section 11	₹ 0
(B)		Corpus donations as referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 11 or Explanation 1 to the third proviso to section 10 (23C) eligible for exemption and invested in modes specified under sub-section (5) of section 11	₹ 0
27.		Voluntary Contributions required to be applied by the auditee during the previous year [24-[23(vi)(d)+26A+ 26B]]	₹ 0
28.		Income other than voluntary contributions derived from property held under trust referred to in section 11 or income of fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution (other than the contribution reported in serial number 24)	₹ 4,26,62,61,709
29.		Income applied outside India which is eligible under clause (c) of sub-section (1) of section 11	₹ 0
30.		Income required to be applied in India by the auditee during the previous year( [27+28-29] )	₹ 4,26,62,61,709
31.		Application of Income (excluding application not eligible and reported under serial number 37)	
(i)		Total amount applied for charitable or religious purposes in India during the previous year	
	(a)	Contribution or donation to any other person during the previous year	





Acknowledgement Number:542959630290924

	(a)	Revenue	₹ 4,26,62,61,709
	(b)	Capital	₹ 0
(vii)		Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding previous year and not claimed as application during that previous year.	₹ 0
(viii)		Repayment of loan or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed as application during that previous year.	₹ 0
<b>Amount to be disallowed from application</b>			
(ix)		Amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	₹ 0
(x)		Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A	₹ 0
	(A)	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A	₹ 0
	(B)	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A	₹ 0
(xi)		Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of Clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act towards Corpus	₹ 0
(xii)		Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of Clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act not having same objects	₹ 0
(xiii)		Donation to any person other than any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act	₹ 0
(xiv)		Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has not been obtained	₹ 0
(xv)		Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has been obtained	₹ 0
(xvi)		Applied for any purpose beyond the objects of the auditee	₹ 0
(xvii)		Any other Disallowance (Please specify)	₹ 0
(xviii)		Total allowable application [(31(v)+31(vii)+31(viii)) - (31(ix) to 31(xvii))]	₹ 4,26,62,61,709



Handwritten signature or mark.

**Acknowledgement Number:542959630290924**

					₹ 0
	(xix)	Amount deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11			₹ 0
	(xx)	Income accumulated as per the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (2) of section 11			₹ 0
	(xxi)	Income accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated objects of trust or institution to the extent it does not exceed 15 % of the income			₹ 0
32.		Taxable Income [30- {31(xviii) to 31(xxi)}]			₹ 0
33.		Income taxable under section 115BBI			
	(a)	Whether the auditee has any deemed income referred to in sub-section (18) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	No		₹
	(b)	Whether the auditee has any deemed income referred to in Explanation 4 to third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (3) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	No		₹
	(i)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes or ceases to be accumulated or set apart for application thereto	No		₹
	(ii)	Whether such income accumulated ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11	No		₹
	(iii)	Whether such income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of the Explanation 3 to third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (a) of sub-section (2) of section 11	No		₹
	(iv)	Whether such income accumulated is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or section 12AB or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10	No		₹
	(c)	(i) Whether the auditee has any income which is income not to be excluded from the total income under twenty first proviso to clause (23C) of section 10 or clause (c) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	No		₹
	(ii)	Whether the auditee has any income which is not to be excluded from the total income under clause (b) of third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (d) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	No		₹
	(d)	Whether the auditee has any income accumulated or set apart in excess of fifteen percent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of the Act and which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income ?	No		₹

Section 115BBI



*(Handwritten signature)*

	(e)	Whether the auditee has made any application out of India which is not excluded from total income under clause (c) of sub-section (1) of section 11	No	₹	
Other Income	34.	Anonymous donation which is chargeable to tax @ 30 % under section 115B8C		₹ 0	
	(a)	Whether the auditee has any income chargeable under section 12(2) and the amount of such income.	No	₹	
	(b)	Income as per Explanation 3B to sub-section (1) of section 11 in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 3A to sub-section (1) of section 11 read with clause (b) of sub-section (2) of section 80G		₹ 0	
	(c)	Income as per Explanation 1B to the third proviso to Clause (23C) of section 10 in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 1A to the third proviso to Clause (23C) of section 10 read with clause (b) of sub-section (2) of section 80G		₹ 0	
Capital Asset	(d)	Income chargeable under sub-section (4) of section 11		₹ 0	
	36.	Details of Capital Asset Transferred under sub-section (1A) of section 11			
	(1)	Whether a capital asset being property held under trust wholly for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?	No	₹	
	(2)	Whether deemed application is claimed as per clause (a) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?	No	₹	
	(3)	Whether a capital asset being property held under trust in part only for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?	No	₹	
Application of Income out of different sources	(4)	Whether deemed application is claimed as per clause (b) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?	No	₹	
	37.	Application of Income out of the following sources during the previous year			
	S. No.	Application of Income out of different sources	Electronic Modes (₹)	other than Electronic Modes (₹)	Total (₹)
	A	Income accumulated under the third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year	5,74,26,74,590	0	5,74,26,74,590
	B	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year	0	0	0
	C	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart.	1,86,21,98,725	0	1,86,21,98,725
	D	Corpus	4,65,45,00,000	0	4,65,45,00,000
E	Borrowed Fund	0	0	0	
F	Any other (Please specify)			0	



Handwritten signature or initials.



S. No.	Name of person	PAN	Amount of application	Mode of Application			Total	Whether any TDS has been deducted	Section under which TDS has been deducted	Amount of TDS
				Electronic Modes	Other than Electronic modes					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Export Import Bank Of India	AAACE2769D	19,07,79,84,013	19,07,79,84,013	0	19,07,79,84,013	No			
2.	Export Credit Guarantee Corporation Of India	AAACE0296K	1,72,25,459	1,72,25,459	0	1,72,25,459	Yes	194J - Fees for professional or technical services	17,22,546	
3.	Export Credit Guarantee Corporation Of India	AAACE0296K	14,64,608	14,64,608	0	14,64,608	No			

39.	Whether provisions of twenty second proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable?	No
(ii)	If yes in (i) specify the reason why the provisions of twenty second proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable?	
(a)	Provision of proviso to clause (15) of section 2 is applicable	No
(b)	Condition specified in clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated	No
(c)	condition specified in clause (b) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated	No
(d)	condition specified in twentieth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated	No
(iii)	If yes in (i), please provide computation of income chargeable under twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13	
(a)	Income for the previous year	₹
(b)	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee,	₹
(c)	Expenditure to be disallowed	
(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed	₹
(ii)	Expenditure from any loan or borrowing	₹

13(10) and 22nd proviso to section 10(23C)




A

Acknowledgement Number: 542959630290924

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="127 1601 207 1702">(iii)</td> <td data-bbox="207 1601 718 1702">Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year, and</td> <td data-bbox="127 560 207 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1601 263 1702">(iv)</td> <td data-bbox="263 1601 718 1702">Expenditure in the form of contribution or donation to any person.</td> <td data-bbox="207 560 263 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1601 319 1702">(v)</td> <td data-bbox="319 1601 718 1702">Capital expenditure</td> <td data-bbox="263 560 319 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1601 430 1702">(vi)</td> <td data-bbox="430 1601 718 1702">Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40</td> <td data-bbox="319 560 430 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 1601 542 1702">(vii)</td> <td data-bbox="542 1601 718 1702">Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 or 3A of section 40A</td> <td data-bbox="430 560 542 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="542 1601 598 1702">(viii)</td> <td data-bbox="598 1601 718 1702">Any other disallowance</td> <td data-bbox="542 560 598 1601">₹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1601 654 1702">(ix)</td> <td data-bbox="654 1601 718 1702">Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))</td> <td data-bbox="598 560 654 1601">₹ 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="654 1601 718 1702">(d)</td> <td data-bbox="718 1601 718 1702">Income chargeable to tax under twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 { a - b+c (ix)}</td> <td data-bbox="654 560 718 1601">₹ 0</td> </tr> </table>	(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year, and	₹	(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	₹	(v)	Capital expenditure	₹	(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	₹	(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 or 3A of section 40A	₹	(viii)	Any other disallowance	₹	(ix)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))	₹ 0	(d)	Income chargeable to tax under twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 { a - b+c (ix)}	₹ 0
(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year, and	₹																								
(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	₹																								
(v)	Capital expenditure	₹																								
(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	₹																								
(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 or 3A of section 40A	₹																								
(viii)	Any other disallowance	₹																								
(ix)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))	₹ 0																								
(d)	Income chargeable to tax under twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 { a - b+c (ix)}	₹ 0																								
40.	In case auditee is approved under second proviso to sub-section (5) of section 80G, please provide the following details																									
	(a)	Whether any amount of expenditure incurred during the previous year which is of a religious nature and the amount of such expenditure	No																							
	(b)	Total income of auditee during the previous year	₹ 0																							
	(c)	Percentage of expenditure which is of religious nature to the total income [ Amount in (a)/(b)]	0 %																							
41.	Details of specified person* as referred to in sub-section (3) of section 13																									



Handwritten signature or mark.





Acknowledgement Number: 542959630290924

	(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	No	₹
	(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	No	₹
	(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste	No	₹
	(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	No	₹
	(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	No	
44.		Whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to Clause (23C) of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been claimed as an application of income and the amount of such depreciation?	No	₹
45.		In view of provisions of nineteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (7) of section 11, please specify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 [other than clause (1), clause (23C) and clause (46) thereof] during the previous year and the amount of such claim?	No	₹
46.		Whether the auditee has taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit specified in section 269SS during the previous year?	No	₹
47.		Whether the auditee has received an amount exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day, or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?	No	₹
48.		Whether the auditee has repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?	No	₹
49.		Whether the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-8 or Chapter XVII-BB?	Yes	
	(A)	Whether the auditee is liable to pay interest under section 201(1A) or section 206C(7) ?	No	



Handwritten signature or mark.



**Schedule Corpus : Details of Corpus**

Type of Corpus Donation	(1) Opening Balance at the beginning of the previous year (Corpus not specified till the beginning of the previous year)	(2) Received/Treated as corpus during the previous year	(3) Applied during the previous year	(4) Amount invested or deposited back in to corpus (which was earlier applied and not claimed as application of such application fulfilled the conditions)	(5) Total amount invested or deposited back in to corpus	Financial year in which (4) was applied earlier	Closing Balance [(1)-(2)+(3)]	Invested in modes specified in section 11(3)	Amount raised in previous measurement year	Invested in modes other than specified in section 11(3) as on last day of the previous year	(11) Amount applied out of corpus for the purpose other than for voluntary contribution was made	(12) Contribution or donation to any person	(13) Maintained as not separately identifiable	(14) Invested or deposited in the forms and modes other than specified under sub-section (3) of section 11.
(i) Other than (ii) above received on or after 01.04.21	11,50,00,00,000		4,65,45,00,000				11,84,55,00,000	11,84,55,00,000						
(ii) Other than (i) and (i) above	8,08,76,00,000		8,08,76,00,000											



7

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule FC: Details of Foreign Contribution**

Nature of foreign contribution received during the previous year	Amount of foreign contribution received during the previous years ( In Rs.)	Details of the total application from such contribution during the previous year ( Amount in Rs.)
No Records Available		



4

Acknowledgement Number: 542959630290924

Schedule LB: Details of Loan and Borrowing

(1) Opening Balance as on 1st April of the previous year	(2) Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the previous year	(3) Applied for the objects of the trust or institution during the previous year	(4) Amount of repayment of loan or borrowing during the previous year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	(5) Financial year in which (4) was applied earlier	(6) Total repayment of loan or borrowing during the previous year	(7) Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)
No Records Available						



5

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule Int App: Details of income applied outside India**

S. No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 15CA	Amount of remittance outside India other than (4)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country/Region of application	Whether applied for promoting international welfare in which India is interested and is and not to be included in total income of the auditee?	If approval for application outside India has been taken		
								Approval number	General/Special	Date of Approval
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No Records Available										



4

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule D1: Details of deemed application under Explanation 1 sub-section (1) of section 11 and deemed income under sub-section (1B) of section 11**

(1) Year in which income is deemed to be applied (F.Y.)	(2) Date of furnishing Form 9A	(3) Amount deemed to be applied during the previous year referred to in column 1	(4) Reason of deeming application	(5) Out of the deemed application claimed earlier, amount required to be applied	(6) Amount taxed in any earlier assessment year(s) out of the amount referred to in column (5)(Fill schedule DA)	(7) = (5)-(6) Out of deemed application claimed, amount required to be applied during the financial year pertaining to current assessment year	(8) Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year relating to current AY	(9) = (7)-(8) Amount which could not be applied and deemed to be income u/s 11(1B) during the previous year	(10) = (5)-(7) Balance Amount of deemed application
No Records Available									



5

Schedule AC: The details of accumulation

S. No.	Year of accumulation (1)	Date of Filing Form 10 (2)	Amount accumulated in the year of accumulation (3)	Purpose of accumulation (4)	Amount applied for charitable or religious purposes up to the beginning of the previous year (5)	Balance to be applied (6) (5)	Amount (tax) in any earlier assessment (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	Amount (tax) in any earlier assessment (7)	Balance available for application (6)-(7)	Amounts applied for charitable or religious purposes during the previous year out of (8)	Amount applied for purposes other than the purposes for which such accumulation was made (if applicable) (10)	Amount credited or paid to any trust or institution registered or approved under sub-section (1) or (4) or (14) or (19) of clause (23C) of section 19 (if applicable) (11)	Balance amount available for application (8) - (10) - (11) - (12)	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 12 (if applicable) (12)	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 12 (if applicable) (14)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable) (15)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (2) of section 11 (if applicable) (10)+(11)-(14)-(15)	
1.	2021-22		5,72,63,05,144	To implement new schemes and programs as directed by govt for the benefit of medium & long term project support from society	4,21,95,92,026	9,56,67,13,118	0	1,50,67,13,118	5,26,67,13,118	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2022-23		4,23,59,61,472	To implement new schemes and programs as directed by govt for the benefit of medium and long term project support from society	0	4,23,59,61,472	0	4,23,59,61,472	4,23,59,61,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>				4,21,95,92,026	5,74,26,74,590	0	5,74,26,74,590	5,74,26,74,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten mark resembling the number '4'.

**Acknowledgement Number:542959630290924**

Schedule DA: Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (1B) of section 11					
Year of accumulation(F.Y.)	Assessment year in which the amount referred to in column (6) of schedule DI was taxed				
	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
<b>Total</b>	0	0	0	0	0

No Records Available



**Acknowledgement Number:542959630290924**

**Schedule ACA: Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (3) of section 11**

Year of accumulation(F.Y.)	Assessment year in which this amount was taxed				
	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
<b>Total</b>	0	0	0	0	0

No Records Available



A

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule SP-a: Whether any part of income or property of the auditee is lent, or continues to be lent, to the specified person during the previous year?**

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details			Details of Security			Details of Interest		
			Nature of Income or Property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to specified person for any period during the previous year	Nature of security	Value of security	Value of Adequate Security	Actual Rate of Interest that is charged	Adequate Rate of Interest		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
No Records Available											



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'B'.

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule SP-b: Details of land, building or other property of the auditee which is, or continues to be, made available during the previous year for use of the specified person, during the previous year :**

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details of asset		Duration for which asset is, or continues to be, made available for the use of specified person during the previous year		Details of rent for the previous year			Details of other compensation for the previous year		
			Name of asset	Address	From	To	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensation	Adequate compensation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

No Records Available



Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'r'.

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

Schedule SP-c: Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the specified person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the previous year

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of Services rendered by specified person	Details of Payment for the previous year		Reasonable Amount for Services
				Nature of payment	Amount of payment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No Records Available						



↗

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

Schedule SP-d: Details of the services of the auditee are made available to the specified person during the previous year?

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details of Services		Value of services made available (In Rs)		Actual amount of remuneration for the service		Adequate Remuneration for the service		Details of Compensation for the previous year		
			Nature of services made available	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

No Records Available




5

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule SP-e 1 : Details of any share, security is purchased by or on behalf of the auditee from the specified person during the previous year?**

S. No.	Name of specified person	TIN of specified person	Nature of property purchased	Details of Shares or Security				Details of Other Property being Movable					
				Name of the Company/ Cosmos of which the shares are purchased	Number of shares purchased during the previous year	Price of each share/security	Total consideration paid shares or security	Adequate consideration for shares or security	Nature of property	Number of property purchased	Price of property	Total consideration paid for property during the previous year	Adequate Consideration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

No Records Available



4

Acknowledgement Number: 542959630290924

Schedule SP- e 2 : Details in case of Other Property being Immovable:

S. No.	Name of specified person	PIN of specified person	Type of asset	Address of Property	Area (in Sq ft)	Stamp Duty Value	Details of Consideration Amount of consideration paid for asset	Adequately Consideration for asset
No Records Available								



7

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule SP- f 1: Details of any share, security sold by or on behalf of the trust or institution to a specified person during the previous year?**

S. No.	Name of specified person	FMA of specified person	Nature of property sold	Details of Shares or Security				Details of Other Property being Movable				Total consideration for property during the previous year	Adequate Consideration
				Name of the Company or Concern of which the shares are sold	Number of shares sold during the previous year	Price of each share or security	Total consideration shares or security	Adequate consideration for share or security	Nature of movable property	Number of movable properties sold	Price of Movable property		
No Records Available													




5



**Acknowledgement Number: 542959630290924**

Schedule SP-g : Details of any income or property which is diverted during the previous year in favour of any specified person				
S. No.	Name of specified person in whose favor income or property diverted	PAN of specified person	Details of Income or property that is diverted	
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		No Records Available		



5

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule h : Details of any funds that are, or continue to remain invested in any concern during the previous year in which the specified person has a substantial interest**

S. No.	Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Details of the Concern in which funds are, or continue to remain, invested				Details of substantial interest						
			Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	Duration of investment during the previous year		Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	From	To	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

No Records Available



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or signature.

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

Schedule TDS disallowable : Details of amounts inadmissible disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:

(a) Details of payment on which tax is not deducted

Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No Records Available					

(b) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub-section (1) of section 139

Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No Records Available							



5

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C ) or Explanation 3 sub-section(1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A

S. No.	Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Details of Payee		
				Name	PAN or Aadhar of payee, if available	Address
No Records Available						



4

**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule 40A(3A):** Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) / sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A

S. No.	Date of Payment	Amount	Nature	Details of Payee		
				Name	PAN or Aadhar of payee, if available	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
No Records Available						



4

Acknowledgement Number:542959630290924

Schedule TDS/TCS									
Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section/ Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (6)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)	(10)
(1)	(2)&(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
MUMN1S285E	194C - Payments to contractors	29,400	29,400	29,400	294	0	0	0	0
MUMN1S285E	194J - Fees for professional or technical services	73,92,281	73,92,281	73,92,281	7,39,228	0	0	0	0



4

Acknowledgement Number:542959630290924

Schedule Statement of TDS/TCS

Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MUMN15285E	26Q	31-Oct-2023	05-Oct-2023	Yes
MUMN15285E	26Q	31-Jan-2024	16-Jan-2024	Yes
MUMN15285E	26Q	31-May-2024	04-May-2024	Yes



A

Acknowledgement Number:542959630290924

Schedule Interest on TDS/TCS

Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment
(1)	(2)	(3)	(4)
No Records Available			



4

Acknowledgement Number:542959630290924

Schedule 269SS: Details of loan or deposit or any specified sum taken, exceeding the limit specified in section 269SS during the previous year									
S. No.	Name of the lender or depositor	PAN or Aadhar the payee, if available	Address	Loan or Deposit or Any Specified Sum	Amount of loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the previous year?	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	By Cheque or Bank Draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether Account Payee if by Cheque or Bank Draft?
No Records Available									



4



**Acknowledgement Number: 542959630290924**

**Schedule 269T: Details of repayment of any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?**

S. No.	Details of Payer		Details of Transaction				Mode of Repayment				
	Name	PAN of the payer, if available	Address	Loan or Deposit or Any Specified Advance	Amount	Please specify mode of receipt by Cheque or Bank Draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other	Whether Account Papers, if by Cheque or Bank Draft?	Whether Squared up?	Maximum Amount outstanding	By Cheque or Bank Draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether Account Papers if by Cheque or Bank Draft?

No Records Available




4

Acknowledgement Number:542959630290924

Schedule other law violation

S. No.	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non-compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non-compliance has occurred	Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No Records Available						

This form has been digitally signed by SANDEEP RAMESH VERMA having PAN AACPV6136E from IP Address 106.220.181.170 on 29/09/2024 08:08:38 PM Dsc SI.No and issuer ,C=IN,O=Professional DigiSign Pvt. Ltd.,OU=Certifying Authority



4

अनुसूचक "घ"

एनईआई ट्रस्ट

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ लेखांकन वर्ष

आवक्य वर्ष: 2024-25

दिनांक 31 मार्च, 2024 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक देयताओं के कर प्रविष्टावृत्त का विवरण दिखाते वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	Difference	कर प्रविष्टावृत्त
1	सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन फंड के अंतर्गत योगदान	1,65,51,17,927	89,66,89,641	75,84,28,286	सीओआई में अयोक्ता रु. 75.84 करोड़
2	लक्षित दायों के लिए प्रत्यक्ष	18,13,16,37,706	33,67,43,75,763	(15,54,27,38,058)	सीओआई में अयोक्ता रु. 1,813 करोड़ रुपये एवं 3,367.43 करोड़ रुपये के दायों के लिए प्रत्यक्ष को कम कर दिया गया
3	वित्तीय क्रेडिट देय:				
(i)	टीडीएस देय	7,00,678	17,52,246	(10,51,568)	सीओआई में अयोक्ता 7 लाख रुपये एवं दाय किया 17.44 लाख रुपये
(ii)	वित्तीय शुल्क देय	51,34,802	-	51,34,802	सीओआई में अयोक्ता 51.34 लाख रुपये
(iii)	वित्तीय लेनदार	4,11,480	2,39,996	1,71,484	सीओआई में 4.11 लाख रुपये अयोक्ता कर दिए एवं 2.39 लाख रुपये का दाय किया

एनईआई ट्रस्ट के लिए

हस्ताक्षरित

(मुख्यालय अध्यक्ष)  
प्रांथ ट्रस्टी

संयोजक

(सिद्धार्थ महारज)  
ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(रमो बंगरी)  
ट्रस्टी



**Annexure "A"**  
**NEIA Trust**  
**Accounting Year Ended 31st March 2024**  
**Assessment Year: 2024-25**

Statement showing details of tax treatment of liabilities as on 31st March, 2024 vis a vis 31st March, 2023

Sr. no.	Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23	Difference	Tax treatment
1	Contribution Due to Public Trust Administration Fund	1,65,51,17,927	89,66,89,641	75,84,28,286	Disallowed Rs. 75.84 crores in COI
2	Provision for Pending Claims	18,13,16,37,706	33,67,43,75,753	(15,54,27,38,058)	Disallowed Rs. 1,813 crores & and reduced reversal of provision for claims of Rs. 3,367.43 crores in COI
3	<b>Sundry Credit Balances:</b>				
(i)	TDS Payable	7,00,678	17,52,246	(10,51,568)	Disallowed Rs. 7 lakhs & claimed Rs. 17.44 lakhs in COI
(ii)	Legal Charges Payable	51,34,802	-	51,34,802	Disallowed Rs. 51.34 lakhs in COI
(iii)	Sundry Creditors	4,11,480	2,39,996	1,71,484	Disallowed Rs.4.11 lakhs & claimed Rs. 2.39 lakhs in COI

For NEIA TRUST

*S. Ambastha*

(Srisiraj Ambastha)  
Managing Trustee

*Siddharth Mahajan*

(Siddharth Mahajan)  
Trustee

*Harsha Bangari*

(Harsha Bangari)  
Trustee



**एनईआईट्रस्ट**  
**कुल आय की गणना का विवरण**  
**दिनांक 31 मार्च 2024 को सफल हुआ लेखांकन वर्ष**  
**सूचकांकन वर्ष: 2024-25**

क्र. सं.	विवरण	नोट संदर्भ	राशि (रुपये में)	राशि (रुपये में)
	आय एवं व्यय खाते के अनुसार सकल आय			37,94,06,37,472
घटाएँ:	आय के रूप में नहीं माने गए राशियों के प्रावधान को रिपर्स कर दिया गया, क्योंकि निर्धारण वर्ष 2023-24 में किए गए प्रावधान को आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना गया था			33,67,43,75,763
	सकल आय			4,26,62,61,709
घटाएँ:	ट्रस्ट की प्रबंधनव्ययों पर किया गया व्यय वर्ष के दौरान उपयुक्त किया गया		38,03,39,12,307	
घटाएँ:	प्रोविड खातों के प्राथमिक एवं समाप्तन रोप के बीच अंतर		5,20,67,917	
घटाएँ:	दिनांक 31.03.2024 तक भुगतान नहीं किया गया वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित व्यय	2	18,89,63,12,952	
घटाएँ:	संशोधित दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान नहीं किया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित व्यय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान किया गया	3	19,84,742	
			19,08,75,16,180	
घटाएँ:	आवकत भुगतान	6	(2,56,18,81,157)	
			16,52,56,35,024	
घटाएँ:	कॉर्पस का उपयोग आय के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है	5	(4,65,45,00,000)	
			11,87,11,35,024	
घटाएँ:	निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए संचित आय के विपक्ष समायोजित		(1,50,67,13,118)	
घटाएँ:	निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए संचित आय के विपक्ष समायोजित		(4,23,59,61,472)	
	वर्ष के दौरान आय का शुद्ध अनुप्रयोग (अतिरिक्त) आय का अनुप्रयोग (अर्थात् घटा)			6,12,84,60,434
घटाएँ:	घटाएँ : धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत आवेदन के रूप में 15% की अनुवृत्ति - अतिरिक्त आवेदन के पक्षत शुद्ध तक सीमित			(1,86,21,98,725)
	(अतिरिक्त) आय का अनुप्रयोग (अर्थात् घटा)			(1,86,21,98,725)

## टिप्पणी:

- आवकत अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के प्रावधानों का अनुप्रयोग:
  - करदाता का निरस्तन भारत सरकार द्वारा किया जाता है
  - एओ एवं निर्धारितों के साथ इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या निर्धारितों का प्रयोजन अधिनियम की धारा 2(15) के लागू प्रावधानों के संदर्भ में लिए गए अर्थ के अंतर्गत वैरिटेबल उद्देश्य है।
  - एओ के अधिप्राय में, निर्धारितों की प्रयोजनार्थ वैरिटेबल उद्देश्य नहीं हैं क्योंकि उन उद्देश्यों का प्रावधान लागू है, क्योंकि निर्धारितों के प्रयोजन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति की सेवा में आ रही है।
  - इतलिय, एओ द्वारा पिछले वर्षों के लिए निर्धारितों की आय का आकलन करने में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।
  - व्यक्ति, मानवीय, मुंबई हाईकोर्ट द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2017-18 एवं 2019-20 के लिए निर्धारितों के स्वयं के मामले में अपने आवेदन के जरिए माना है कि निर्धारितों की प्रयोजनार्थ "वैरिटेबल उद्देश्य" हैं जैसा कि धारा 2(15) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अधिनियम एवं अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत छूट की अनुवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2018-19 एवं 2022-23 के लिए निर्धारितों की कुल आय का आकलन करने में एओ द्वारा ट्रस्ट की दलीलों को भी स्वीकार कर लिया गया है एवं अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत छूट की अनुवृत्ति प्रदान की गई है, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत चालित किया गया सूचकांकन के आदेशों से स्पष्ट है।
  - लागू लक्ष्यों एवं मानवीय मुंबई हाईकोर्ट के उक्त निर्णयों तथा करदाता के स्वयं के मामले में सूचकांकन वर्ष 2018-19 एवं 2022-23 के लिए सूचकांकन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा निरस्तन के नियम के सिद्धांत का समानवर्तीक पालन करते हुए, कानून में एक अच्छी तरह से स्थिति प्रस्ताव पर भरोसा किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्धारितों के प्रयोजन वैरिटेबल उद्देश्य हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत परिभाषित किया गया है और इतलिय, धारा के प्रावधान संदर्भ के तहत वर्ष के लिए आय का आकलन करने में अधिनियम के 11 को लागू किया जाना चाहिए।

## 2 वर्षों के अंत तक भुगतान न किए गए व्यय, आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया [अनुलग्नक ए का संदर्भ ले]

विवरण	राशि (रुपये में)
राशियों के लिए प्रावधान	18,13,16,37,706
सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन फंड में योगदान	75,84,28,286
टीडीएस रोप	7,00,678
लेखा परीक्षा शुल्क/वित्तिक एवं पेरोवर शुल्क	55,46,282
कुल	18,89,63,12,952



- 3 दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान न किए गए ऋण, वर्ष के दौरान भुगतान किए गए एवं इस्तिफा, आव के आवेदन के रूप में दावा किया गया  
**विवरण** **रशि (रुपये में)**  
 लेखा परीक्षा मुल्क/वित्तिक एवं फेरोल मुल्क 2,39,996  
 निर्धारण वर्ष 2023-24 से संबंधित टीडीएस का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया 17,44,746  
**कुल** **19,84,742**

- 4 सकल प्राप्ति पर धारा 11(1)(ए) के तहत परिभाषीकरण का आधार:  
 निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर विद्धान रखा गया है:  
 (a) सामुदायिक संगठन के लिए सीआईटी बचत कार्यक्रम [248 आईटीआर 1] (एससी) दिनांक 28.11.2000  
 (b) सामुदायिक संगठन के लिए सीआईटी बचत कार्यक्रम [228 आईटीआर 620] (केस एससी) 25.10.1996  
 5 लागू किए गए कोर्पस टान का विवरण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	रशि रुपये में	रशि रुपये में
ट्रस्ट फंड का कोर्पस :- प्रारंभिक जमा	47,41,00,00,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ जमा शेष		47,41,00,00,000
बैंकों में सावधि जमा		11,84,55,00,000
पटार्न: दिनांक 1.04.2021 से प्राप्त हुआ कोर्पस		16,50,00,00,000
कोर्पस का उपयोग आव के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है		(4,65,45,00,000)
6 आयकर भुगतान		
दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर भुगतान	4,89,83,92,198	
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर भुगतान	7,46,02,73,354	
आयकर भुगतान का आवेदन (अर्थात करी)		(2,56,18,81,157)

एचआईए ट्रस्ट के लिए

अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

(कृपया अंकित)  
प्रबंध ट्रस्टी

(निर्देशक महान)  
ट्रस्टी

(हर्षा कपारी)  
ट्रस्टी



**Annexure "B"**  
**NEIA TRUST**  
**STATEMENT OF COMPUTATION OF TOTAL INCOME**  
**ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**  
**ASSESSMENT YEAR: 2024-25**

Sr. No.	Particulars	Note ref.	Amount (in Rs.)	Amount (in Rs.)
	Gross Income as per Income & Expenditure Account			37,94,06,37,472
Less:	Reversal of provision for claims not considered as an income, as in AY 2023-24, provision made was not considered as an application of income.			33,67,43,75,763
	Gross Income			4,26,62,61,709
Less:	<b>Expenditure Incurred on the objects of the Trust</b>			
	Incurred during the year		38,03,39,12,307	
	Less: Difference between opening and closing balance of prepaid expenses		5,20,67,917	
	Less: Expenses pertaining to FY 2023-24 unpaid as on 31.03.2024	2	18,89,63,12,952	
	Add: Expenses pertaining to FY 2022-23 unpaid as on 31.03.2023, paid in FY 2023-24	3	19,84,742	
			19,08,75,16,180	
Less:	Income tax payments	6	(2,56,18,81,157)	
			16,52,56,35,024	
Less:	Corpus used for application of income	5	(4,65,45,00,000)	
			11,87,11,35,024	
Less:	Adjusted against income accumulated for AY 22-23		(1,50,67,13,118)	
Less:	Adjusted against income accumulated for AY 23-24		(4,23,59,61,472)	
	<b>Net application of income during the year</b>			6,12,84,60,434
	<b>(Excess) application of income (I.e. deficit)</b>			(1,86,21,98,725)
	Less: Allowed as application u/s. 11(1)(a) of 15% - restricted to Nil since excess application			-
	<b>(Excess) application of income (I.e. deficit)</b>			<b>(1,86,21,98,725)</b>

**Notes:**

**1 Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):**

- 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
- 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
- 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as proviso to the said sub-section is applicable, since the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
- 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
- 1.5 However, the Hon. Mumbai ITAT vide its Order(s) in the assessee's own case for AY 2010-11 to 2017-18 and 2019-20 has held that the objects of the assessee are "Charitable Purpose" as defined U/s. 2(15) of the Act and has allowed exemption under Section 11 and 12 of the Act. Further, the AO in assessing the total income of the assessee for AY 2018-19 and 2022-23 has also accepted the contentions of the Trust and has allowed exemption u/s. 11 and 12 of the Act, as evident from the orders of assessment passed u/s. 143(3) of the Act.
- 1.6 Keeping in view the facts applicable and the said decisions of the Hon. Mumbai ITAT and the order of assessment for the assessment years 2018-19 and 2022-23 in the assessee's own case being relied upon and respectfully following the principle of Rule of Consistency, a well settled proposition in law relied upon, it is submitted that objects of the assessee are charitable purpose as defined under Section 2(15) of the Act and hence, the provisions of section 11 of the Act have to be applied in assessing the income for the year under reference.

**2 Expenses unpaid as of the year-end, not claimed as application of income [Refer Annexure A]**

Particulars	Amount (Rs.)
Provision for Claims	18,13,16,37,706
Contribution to Public Trust Administration Fund	75,84,28,286
TDS payable	7,00,678
Audit Fees/Legal & Professional Charges	55,46,282
<b>Total</b>	<b>18,89,63,12,952</b>

**3 Expenses unpaid as of 31.03.2023, paid during the year and hence, claimed as an application of income**

Particulars	Amount (Rs.)
Audit Fees/ Legal & Professional Charges	2,39,996
TDS pertaining to AY 2023-24 paid during the year	17,44,746
<b>Total</b>	<b>19,84,742</b>



- 4 **Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Receipts:**  
**Reliance is placed on following judicial pronouncements:**  
(a) CIT v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000  
(b) CIT v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996
- 5 The details of corpus donation applied is determined as under:

Particulars		Amount in Rs	Amount in Rs
Add:	<b>Trusts Funds or Corpus :-</b>		
	Opening balance	47,41,00,00,000	
	Received during the year		47,41,00,00,000
	<b>Closing balance</b>		
	Fixed deposits with banks		11,84,55,00,000
	Less: Corpus received from 1.04.2021		16,50,00,00,000
	<b>Corpus used for application of income</b>		<b>(4,65,45,00,000)</b>
<b>6 Income Tax Payments</b>			
	<b>For the year ended 31.03.2024</b>		
	Income Tax Payments	4,89,83,92,198	
	<b>For the year ended 31.03.2023</b>		
	Income Tax Payments	7,46,02,73,354	
	<b>Application of Income Tax Payments (I.e. decrease)</b>		<b>(2,56,18,81,157)</b>

For NEIA TRUST

*S. Anubha*

(Srisrta) Ambastha  
Managing Trustee

*Siddharth Mahajan*

(Siddharth Mahajan)  
Trustee

*Harsha Bangari*

(Harsha Bangari)  
Trustee



आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस

सेवा में

सहायक आयकर निदेशक (छूट) II (2), मुंबई

1. मैं, सृष्टिराज अंबष्ठ, प्रबंध ट्रस्टी, एनईआईए ट्रस्ट की ओर से आपका ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ट्रस्टियों द्वारा पारित प्रस्ताव (प्रति संलग्न है) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित पिछले वर्ष की आय में से, ट्रस्ट की आय में से शून्य रुपये की राशि, जो पिछले वर्ष(वर्षों) के अंत तक उपलब्ध थी, को 31 मार्च, 2029 को समाप्त होने वाले आगामी वर्ष(वर्षों) तक संचित अथवा पृथक रखा जाना अनिवार्य है ताकि ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि को संचित किया जा सके: -

(क) राष्ट्रीय हित में मध्यम तथा दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए एनईआईए योजना को लागू करना।

(ख) मध्यम तथा दीर्घ अवधि के निर्यातकों के लाभ के लिए ऐसी अन्य योजनाओं को लागू करना, जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर बना सकती है एवं ट्रस्ट को उन्हें लागू करने का निर्देश दे सकती है।

(ग) अल्प अवधि के निर्यातकों के लाभ के लिए ऐसी अन्य योजनाओं को लागू करना, जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर बना सकती है एवं ट्रस्ट को उन्हें लागू करने का निर्देश दे सकती है।

2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के अंत से आरंभ होने वाले छह महीने की अवधि की समाप्ति से पूर्व, इस प्रकार संचित अथवा पृथक रखी गई राशि को धारा 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक रूपों अथवा पद्धतियों में निवेश अथवा जमा किया गया हो।

3. इस प्रकार संचित अथवा पृथक रखी गई राशि के निवेश (जमा सहित) एवं अनुप्रयोग, यदि कोई हो, के विवरण के साथ ट्रस्ट के वार्षिक खातों की प्रतियां आपके समक्ष प्रत्येक प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंत से आरंभ होने वाले छह महीने की समाप्ति से पहले प्रस्तुत की जाएंगी।

4. अनुरोध है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु, ट्रस्ट के संबंध में आय को छूट देने के लिए उस धारा का लाभ ट्रस्ट के मूल्यांकन में दिया जाए, जैसा कि ऊपर उल्लेखित संचित अथवा पृथक रखी गई आय के संबंध में है।

5. इस नोटिस को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट, प्रति इसके साथ संलग्न है, की संख्या 1 एवं 4 के साथ पढ़ा जाये।

दिनांक: 28/09/2024

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

सृष्टिराज अंबष्ठ

(प्रबंध ट्रस्टी)

पता: सी/ओ. ईसीजीसी लिमिटेड, ईसीजीसी भवन,

सीटीएस नंबर 393, एम.वी. रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069



**ANNEXURE "C"**

**FORM NO.10**

[See rule 17]

**Notice to the Assessing Officer/Prescribed Authority under section 11(2) of the  
Income-tax Act 1961**

To

Assistant Director of Income Tax (Exemption) II (2), Mumbai.

1. I, **Sristiraj Ambastha, Managing Trustee**, on behalf of **NEIA Trust** hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees, on (copy enclosed) that, out of the income of the trust for the previous year, relevant to the assessment year 2024-25, an amount of Rs. Nil of the income of the trust, available at the end of the previous year(s) should be accumulated or set apart till the previous year(s) ending 31<sup>st</sup> March, 2029 in order to enable the trustees, to accumulate sufficient funds for carrying out the following purposes of the trust: -
  - (a) To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long Term Exporters in National Interest.
  - (b) To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
  - (c) To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
2. Before expiry of six months commencing from the end of previous year ended 31<sup>st</sup> March, 2024, the amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11.
3. Copies of the annual accounts of the trust along with details of investment (including deposits) and utilization, if any, of the money so accumulated or set apart will be furnished to you before the expiry of six months commencing from the end of each relevant previous year.
4. It is requested that in view of our complying with the conditions laid down in section 11(2) of the income-tax Act, 1961, the benefit of that section may be given in the assessment of the trust exempting the income in respect of the trust in respect of the incomes accumulated or set apart as mentioned above.
5. This Notice is to be read in conjunction with Note Nos. 1 and 4 forming part of Statement of Income for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024, a copy whereof is annexed hereto.

Date: 28/09/2024



Signature

**Sristiraj Ambastha**  
(Managing Trustee)

Address: C/o. ECGC Limited, ECGC Bhavan,  
CTS No. 393, M.V. Road,  
Andheri (East), Mumbai - 400069



सेवा में,

निदेशक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
आरटीआई बिल्डिंग, छठी मंजिल  
एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल के पीछे  
बीकेसी बांद्रा (पूर्व), मुंबई।

एनईआईए ट्रस्ट

31.03.2024 तक सावधि जमा का प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने एनईआईए ट्रस्ट की सावधि जमा रसीद का भौतिक सत्यापन कर लिया है एवं पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2024 तक उसके पास 1184,55,00,000 रुपये (मूलधन) की सावधि जमा राशि है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं .	बैंक शाखा	सावधि जमा की तारीख	उपकरण सं .	ब्याज दर	सावधि जमा राशि
1	इंडियन बैंक	28-03-2024	7748414955	7.50	2,00,00,00,000.00
2	यूको बैंक	28-03-2024	00030310254257	7.60	2,00,00,00,000.00
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	28-03-2024	4023254475-5	7.85	2,00,00,00,000.00
4	पंजाब नेशनल बैंक	28-03-2024	008200LR00000606	7.80	2,00,00,00,000.00
5	बैंक ऑफ इंडिया	28-03-2024	001045110020182	7.50	2,00,00,00,000.00
6	फेडरल बैंक	28-03-2024	15050300639927	7.70	36,98,00,000.00
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	30-03-2024	022123030006909	7.20	47,57,00,000.00
8	आई डी बी आई बैंक	30-03-2024	0000-1001105000018319	7.21	50,00,00,000.00
9	करूर वैश्य बैंक	30-03-2024	2101464000000460/1	7.60	25,00,00,000.00
10	बंधन बैंक	30-03-2024	82000032178425/1	7.80	25,00,00,000.00
					<b>1184,55,00,000.00</b>

कृते वर्मा मेहता एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकर

फर्म पंजीकरण सं . : 112118 W

हस्ताक्षरित

सी ए संदीप वर्मा

भागीदार

सदस्यता सं . : - 045711

यूडीआईएन : 24045711BKIAGV1786

दिनांक : 28/09/2024

स्थान : मुंबई





# VERMA MEHTA & ASSOCIATES

## Chartered Accountants

104, Creative Industries Premises, Sunder Nagar, Kalina, Sanatcruz (East) Mumbai 400098  
Tel : 2666 6359 Fax : 6693 5131 E- Mail - vmaca92@gmail.com

To,

The Director  
Comptroller & Auditor General of India  
RTI Building, 6<sup>th</sup> Floor  
Behind Asian Heart Institute Hospital  
BKC Bandra (East), Mumbai.

NEIA Trust

Certificate of Fixed Deposit as on 31.03.2024

We hereby certify that we have physically verified the Fixed deposit receipt of NEIA Trust and confirm that it holds Fixed Deposit amounting to Rs 1184,55,00,000 (principal) as on 31<sup>st</sup> March 2024. Details of which are as under:

Sr. No.	Bank and Branch	Date of FD Placement	Instrument No.	Interest rate	FD Amount
1	Indian Bank	28-03-2024	7748414955	7.50	2,00,00,00,000.00
2	UCO Bank	28-03-2024	00030310254257	7.60	2,00,00,00,000.00
3	Bank of Maharashtra	28-03-2024	4023254475-5	7.85	2,00,00,00,000.00
4	Punjab National Bank	28-03-2024	008200LR00000606	7.80	2,00,00,00,000.00
5	Bank of India	28-03-2024	001045110020182	7.50	2,00,00,00,000.00
6	Federal Bank	28-03-2024	15050300639927	7.70	36,98,00,000.00
7	Union Bank of India	30-03-2024	022123030006909	7.20	47,57,00,000.00
8	IDBI Bank Ltd	30-03-2024	0000-1001105000018319	7.21	50,00,00,000.00
9	Karur Vysya Bank	30-03-2024	2101464000000460/1	7.60	25,00,00,000.00
10	Bandhan bank	30-03-2024	82000032178425/1	7.80	25,00,00,000.00
					<b>1184,55,00,000.00</b>

FOR VERMA MEHTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm Regn. No. 112118W

CA Sandeep Verma  
Partner - M. No. 045711  
UDIN 24045711BKIAGV1786

Date 28.09.2024  
Place Mumbai

## राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के संबंध में समीक्षा नोट

### 1. पृष्ठभूमि:

- 1.1. मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात या परियोजना निर्यात किसी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परियोजना निर्यात जापान (पीईएम) के अनुसार, आस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात और विदेशों में टर्नकी परियोजनाओं और सिविल निर्माण अनुबंधों के निष्पादन को समग्र रूप से "परियोजना निर्यात" कहा जाता है। परियोजना निर्यात अनुबंध आम तौर पर उच्च मूल्य के होते हैं और निर्यातकों को अनुबंध प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी ऋण शर्तों की पेशकश करने की आवश्यकता होती है।
- 1.2. ईसीजीसी, भारत से किए जाने वाले निर्यात को प्रोत्साहित करने के अपने मिशन से भारत में निर्यातकों को एवं निर्यातकों को निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जोखिम रक्षा प्रदान करता है। अल्पावधि (एसटी) निर्यात एवं मध्यम तथा दीर्घावधि (एमएलटी) परियोजना निर्यात दोनों के अधीन ऋण जोखिमों पर रक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के ऋण बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं।
- 1.3. अस्सी एवं नब्बे के पिछले दशकों में, इराक का ईरान के साथ युद्ध था एवं तत्पश्चात खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा इराक पर हमला किया गया; जोखिमों के चलते इराक में चल रही परियोजनाएं अवरुद्ध हो गयीं। इराकी अर्थव्यवस्था के खराब स्थिति के कारण इराक को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों द्वारा इराक में ली गयी परियोजनाओं पर भुगतान प्राप्त नहीं हुए। निर्यातकों को भारी हानि उठानी पड़ी एवं जिन्होंने ईसीजीसी से बीमा रक्षा प्राप्त की थी उन्हें लगभग 800 करोड़ रु की हानि की क्षतिपूर्ति की गयी।



- 1.4. ईराक संकट का सामना करने के उपरांत ईसीजीसी को यह बोध हुआ की यदि भविष्य में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तो कंपनी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। अतः भारत से मध्यम व दीर्घकालिक निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए , भारत से किए जाने वाले बड़े मूल्य के परियोजना निर्यातों के लिए भारत सरकार का आवश्यक समर्थन आवश्यक है।
- 1.5. इस उद्देश्य के साथ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ( सी सी ई ए ), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मध्यम एवं दीर्घकालिक निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण किया गया जिसे " एन ई आई ए ट्रस्ट " के नाम से जाना जाता है। एन ई आई ए ट्रस्ट का उद्देश्य राष्ट्र हित के उद्देश्य वाली बड़े मूल्य वाली परियोजनाओं एवं निर्यातों , जिन पर ईसीजीसी अपनी क्षमता प्रतिबंधों अथवा उन शर्तों पर जो निर्यातों की प्रतिस्पर्धता को प्रभावित न कर पाएँ पर रक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो पर ऋण जोखिमों पर रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
- 1.6. प्रथम दृष्टतया केवल मध्यम व दीर्घकालिक निर्यात परियोजनाएं एवं वे परियोजनाएं जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध न हो, पर ही एन ई आई ए ट्रस्ट से समर्थन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन देशों को किए जाने वाले निर्यातों पर रक्षा प्रदान की जाएगी जिन पर सामान्य तौर पर पूर्णतया वाणिज्यिक दृष्टि से रक्षा प्रदान करना संभव न हो अथवा जो देश जोखिम सीमाओं के परे हो, जिन पर कंपनी द्वारा निर्धारित ऋण शर्तों / अवधि पर रक्षा संभव न हो, जो वर्तमान में आर्थिक / राजनीतिक संकट से जूझ रहे हों, परंतु जहां सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के अधीन भारत की उपस्थिति अपेक्षित हो।
- 1.7. ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। जब ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात इसके 2,000 करोड़ रुपये का कोष होने की उम्मीद थी। प्रारंभ में, अधिकतम जोखिम की सीमा किसी भी समय



कॉर्पस के पास उपलब्ध कोष के 10 गुना तक रखी गई थी। हालांकि, निर्यातकों की मांग में वृद्धि के कारण, 10.09.2014 को भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), ने अपनी बैठक में, एनईआईए ट्रस्ट के लिए कॉर्पस/अनुदान सहायता प्रतिबद्धता को ₹2000 करोड़ से बढ़ाकर ₹4000 करोड़ कर दिया एवं जोखिम हामीदारी क्षमता (अनुमति प्राप्त अधिकतम देयता) को वास्तविक कोष के 10 गुना से बढ़ाकर 20 गुना कर दिया। सीसीईए ने 29.09.2021 को हुई अपनी बैठक में, एनईआईए योजना में 1,650 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कॉर्पस इन्फ्यूजन को मंजूरी दी थी और एनईआईए के लिए अधिकृत कॉर्पस प्रतिबद्धता को बढ़ाकर 4,741 करोड़ रुपये कर दिया था। तदानुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा 744 करोड़ रु एवं 906 करोड़ रु की पूंजी प्रदान की गई जिससे ट्रस्ट की पूंजी बढ़कर वर्तमान में 4741 करोड़ रु हुई।

1.8. एनईआईए ट्रस्ट मध्यम एवं दीर्घावधि/परियोजना निर्यात के लिए ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षाओं को (आंशिक/पूर्ण) समर्थन देकर मध्यम एवं दीर्घावधि/परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है और भारत से परियोजना निर्यात से जुड़े क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) के लिए एक्जिम बैंक को रक्षा प्रदान करता है। कुल जोखिम हामीदारी क्षमता/अधिकतम देयता में से 75% एनईआईए (बीसी-एनईआईए) की क्रेता ऋण योजना के लिए आरक्षित है और शेष 25% मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात के लिए ईसीजीसी की योजनाओं का समर्थन करने के लिए निर्धारित है।

1.9. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक भारत सरकार से प्राप्त योगदान ₹ 4,741 करोड़ था। हालांकि, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी), व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) और संभावित दावों के लिए प्रावधान/रिपोर्ट की गई चूक और न्यायालय अपील कार्यवाही के तहत आयकर मांग के



लिए लेखांकन के बाद जारी/स्वीकृत रक्षा के एमएल का समर्थन करने के लिए कोई कोष उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 1,209.70 करोड़ थी। इसके अलावा, आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी), व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) और संभावित दावों के लिए प्रावधान/रिपोर्ट की गई चूकों के विरुद्ध तथा न्यायालय अपील कार्यवाही के अंतर्गत आयकर मांग के लिए लेखांकन के बाद, लंबित दावों, कर संबंधी प्रावधानों आदि के कारण ट्रस्ट की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए कोई कोष उपलब्ध नहीं है।

- 1.10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान देयता एवं ट्रस्ट को नए रक्षा जारी करके परियोजना-निर्यात को समर्थन जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए ₹ 3,900 करोड़ की सहायता अनुदान का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव दिनांक 3 अगस्त, 2023 को हुई बैठक में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष रखा गया।
- 1.11. उपरोक्त निधि निवेश अनुरोध पर, ईएफसी ने उक्त बैठक में एनईआईए ट्रस्ट में ₹2,687.30 करोड़ निवेश की संस्तुति की है। तदनुसार, एनईआईए ट्रस्ट में ₹2,687.30 करोड़ के निधि निवेश की मांग करने वाला एक मसौदा कैबिनेट नोट (डीसीएन) भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
- 1.12. भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति अर्थात् निर्देश समिति (सीओडी) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एनईआईए योजना का उचित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, इसके संचालन की निगरानी करना तथा इस योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,



समिति की संरचना में आवश्यकतानुसार उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

सीओडी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) वाणिज्य सचिव, अध्यक्ष
- ii) सचिव, आर्थिक मामले, सदस्य
- iii) सचिव, विदेश मंत्रालय, सदस्य
- iv) अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, सदस्य
- v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी, सदस्य
- vi) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक, सदस्य
- vii) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, ईएंडएमडीए प्रभाग, वाणिज्य विभाग, सदस्य-सचिव

## 2. ईसीजीसी की भूमिका:

2.1 प्रबंधन एजेंसी के रूप में ईसीजीसी सीओडी के विचारार्थ रक्षा (क्रेता ऋण- एनईआईए रक्षा एवं ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षा) के लिए प्रस्तावों से संबन्धित सभी गतिविधियाँ पूर्ण करता है। सीओडी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, रक्षा जारी करने एवं निगरानी करने के साथ ही रक्षा के प्रशासन संबंधी कार्य, रक्षित परियोजनाओं की आवधिक रिपोर्ट, दावा प्रबंधन एवं वसूली इत्यादि का प्रबंधन किया जाता है। ईसीजीसी ट्रस्ट के निवेशों का भी प्रबंधन करता है।

2.2 ट्रस्ट के लेखे सीएजी द्वारा नामित लेखा परीक्षकों के द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वैधानिक लेखापरीक्षा एवं इसके साथ ही सीएजी द्वारा किए जाने वाले अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

## 3. एनईआईए निष्पादन सारांश



3.1 प्रारम्भिक दिनों में, ट्रस्ट द्वारा, ईसीजीसी को, जोखिम की हामीदारी को साझा करने की आपसी सहमति के साथ, अधिक मूल्य वाले मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात/परियोजना निर्यात अनुबंधों अथवा उच्च जोखिम वाले देशों, जो ईसीजीसी की हामीदारी क्षमता से परे थे, के लिए क्षतिपूर्ति/गारंटी प्रदान करते हुए परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया।

3.2 वर्ष 2011 में, परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के अभियान के हिस्से के रूप में, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा भारतीय एक्जिम बैंक (बीसी- एनईआईए रक्षा) द्वारा विस्तारित क्रेता ऋण के लिए रक्षा जारी की गयी। क्रेता ऋण एक विशिष्ट वित्तपोषण तंत्र है जो क्रेता, जो भारतीय परियोजना निर्यातक (आईपीई) द्वारा पूर्ण की जाने वाली भारत की विशिष्ट परियोजना से जुड़े हैं, उन्हें ऋण (खरीदार को दिया जाने वाला ऋण) उपलब्ध करवाता है। यह सुविधा उन विकासशील देशों के पारंपरिक एवं नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिन्हें मध्यम या दीर्घकालिक आधार पर आस्थगित ऋण की आवश्यकता होती है। अपनी स्थापना के बाद से, बीसी-एनईआईए रक्षा ने भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। योजना के अंतर्गत समाहित जोखिम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट की लेखों में शामिल किया जाता है।

3.3 कुल मिलाकर, 14 देशों अर्थात् श्रीलंका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, तंजानिया, ईरान, सेनेगल, मालदीव, कोट डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, मॉरिटानिया और युगांडा में भारत एक्जिम बैंक को ₹ 25,214 करोड़ की कुल अधिकतम देयता वाली समान संख्या में परियोजनाओं के लिए क्रेता ऋण योजना के तहत 28 रक्षा जारी किए गए हैं। इन 28 कवरों में से, ₹14,564 करोड़ की कुल अधिकतम देयता वाले 13 रक्षा बंद कर दिए



गए। इसमें ईरान (1), घाना (2), श्रीलंका (4), सूरीनाम (2), जाम्बिया (1), जिम्बाब्वे (2) के रक्षा शामिल हैं, जो इन परियोजनाओं के विरुद्ध ₹6,829.67 करोड़ के दावे-भुगतान के कारण बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा, जाम्बिया पर एक रक्षा सफल पुनर्भुगतान पर बंद कर दिया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 15 क्रेता ऋण रक्षा लागू थे, जिनकी कुल अधिकतम देयता 8 निर्यातक-लाभार्थियों द्वारा 9 देशों में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए ₹ 10,650 करोड़ थी। इनमें से, जाम्बिया में परियोजना के लिए जारी एक रक्षा के तहत दावा दायर किया गया है, जिसकी अनुमानित देयता 31.03.2024 तक ₹ 139.14 करोड़ (लगभग) है। बीसी-एनईआईए के तहत रक्षा किए गए प्रमुख क्षेत्र निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग सामान की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, बिजली पारेषण और वितरण आदि हैं।

3.4 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, कैमरून, घाना, मालदीव और मेडागास्कर में छह परियोजनाओं की रक्षा के लिए निर्देश समिति (सीओडी) द्वारा छह सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, जिसमें छह निर्यातकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए इंडिया एक्विजिशन बैंक को ₹ 6,273.87 करोड़ की कुल अधिकतम देयता थी। सभी सैद्धांतिक स्वीकृतियों की वैधता जून 2022 से नवंबर 2023 के बीच समाप्त हो गई थी।

3.5 सीओडी द्वारा दिनांक 19/03/2024 को अपनी 60वीं बैठक में निर्देश दिया गया कि हेडरूम की अनुपलब्धता को देखते हुए तथा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की अनुशंसा के अनुसार, बीसी-एनईआईए के अंतर्गत कोई और रक्षा जारी नहीं किया जाना चाहिए तथा सैद्धांतिक अनुमोदनों को रद्द करने के लिए एजेंडा नोट सीओडी के समक्ष उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर, इंडिया एक्विजिशन बैंक ने ऊपर बताए अनुसार सभी सैद्धांतिक अनुमोदनों को रद्द कर दिया है।



3.6 दिनांक 31.03.2024 तक, ट्रस्ट ने घाना, ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में अपनी 12 क्रेता ऋण सुविधाओं के लिए भारतीय एक्विजिशन बैंक को ₹ 6,829.67 करोड़ के दावों का भुगतान किया था। दिनांक 31.03.2024 तक, एक्विजिशन बैंक ने ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में क्रेता ऋण सुविधाओं के तहत भुगतान किए गए दावों के कारण ट्रस्ट के साथ ₹ 180.25 करोड़ की कुल वसूली साझा की है।

3.7 अपनी एमएलटी जोखिम साझाकरण योजना के तहत, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा पिछले कुछ वर्षों में, ईसीजीसी को 331 बीमा रक्षा के लिए सहायता प्रदान की है, जिसमें कंपनी द्वारा ₹43,571 करोड़ मूल्य की 213 परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹19,591 करोड़ की देनदारी जारी की गई है। सीमा प्रावधानों के अनुसार, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा ईसीजीसी को दी जाने वाली सहायता कंपनी द्वारा हामीदारी किए गए जोखिम के 50% से 100% तक है। सीओडी द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्रस्ट को अपेक्षित गारंटी शुल्क के भुगतान के माध्यम से ईसीजीसी द्वारा जोखिम को ट्रस्ट के साथ साझा किया जाता है। दिनांक 31.03.2024 तक, एमएलटी जोखिम साझाकरण योजना के अंतर्गत 70 परियोजनाओं के लिए 83 रक्षा लागू थे, जिनकी अधिकतम देयता ₹4,951 करोड़ थी।

### 3.8 वर्तमान में जारी रक्षाओं के अंतर्गत कुल जोखिम

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रस्ट द्वारा रक्षा किए गए एक्सपोजर में पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में 38% (लगभग) की नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। एक्सपोजर में कमी मुख्य रूप से दावों के निपटान के कारण या रक्षा की समाप्ति पर रक्षा बंद होने के कारण हुई है।



**एनईआईए के अंतर्गत वर्तमान में चालू परियोजनाओं  
का जोखिम मूल्य करोड़ रुपये में**



**4. दिनांक 31.03.2024 तक एनईआईए के अंतर्गत जारी रक्षाओं का सारांश**

क्रम संख्या.	विवरण	बीसी-एनईआईए	ईसीजीसी	
			पॉलिसी	ई सी आई वी
<b>दिनांक 31.03.2024 तक जारी रक्षाएँ</b>				
1	रक्षित परियोजनाओं की संख्या (परियोजना मूल्य के साथ)	28 (Rs.18,006 करोड़)	179 (Rs.34,221 करोड़)	34 (Rs. 9,350 करोड़)
2	जारी की गयी रक्षाओं की संख्या (रक्षा मूल्य के साथ)	28 (रुपए 16,983 करोड़)	209 (रुपए 22,644 करोड़)	122 (रुपए 2,834 करोड़)
3	जारी रक्षा के अंतर्गत अधिकतम देयता	रुपए 25,214 करोड़	रुपए 17,475 करोड़	रुपए 2,116 करोड़
4	बंद हो चुकी परियोजनाएं (परियोजना मूल्य सहित)	13 (रुपए 10,599 करोड़)	116 (रुपए 19,900 करोड़)	27 (रुपए 5,679 करोड़)
5	बंद हो चुकी रक्षाएँ (रक्षा मूल्य सहित)	13 (रुपए 9,925 करोड़)	140 (रुपए 12,711 करोड़)	108 (रुपए 2,052 करोड़)
6	वर्तमान में प्रभावशील परियोजनाएं	15	63	7

क्रम संख्या.	विवरण	वीसी-एनईआईए	ईसीजीसी	
			पॉलिसी	ई सी आई वी
	(परियोजना मूल्य सहित)	(रुपए 7,407 करोड़)	(रुपए 14,321 करोड़)	(रुपए 3,671 करोड़)
7	वर्तमान में प्रभावशील रक्षाएँ (रक्षा मूल्य सहित)	15 (रुपए 7,058.35 करोड़)	69 (रुपए 9,933 करोड़)	14 (रुपए 782 करोड़)
8	31.03.2024 तक अधिकतम देयता	रुपए 10,650 करोड़	रुपए 4,646 करोड़	रुपए 305 करोड़
9	रक्षित देशों की संख्या*			58
10	रक्षित निर्यातकों की संख्या*			81

\*देश और निर्यातक को जारी किए गए रक्षा (पॉलिसी/ईसीआईबी/खरीदार ऋण क्रेडिट) की संख्या से निर्पेक्ष उन्हें केवल एक बार गिना जाता है।

#### 5. मार्च, 2024 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और क्षमता उपयोग:

5.1 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक भारत सरकार से प्राप्त अंशदान ₹4,741 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹4,428.37 करोड़ की आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी आदि) और ₹7,959.67 करोड़ के व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) को शामिल करने के बाद कुल उपलब्ध कोष ₹1,209.70 करोड़ था।

5.2 ट्रस्ट द्वारा हामीदारी किया जा सकने वाला कुल एक्सपोजर उपलब्ध कॉर्पस का 20 गुना या ₹ 80,000 करोड़ जो भी कम हो, है। एनईआईए ट्रस्ट के कुल स्वीकृत एक्सपोजर/एमएलपी में से 75% एनईआईए ट्रस्ट की क्रेता ऋण योजना के लिए आरक्षित है और शेष 25% उच्च मूल्य परियोजना निर्यात के लिए जारी रक्षा के लिए पुनर्बीमा समर्थन के माध्यम से ईसीजीसी का समर्थन करने के लिए निर्धारित किया गया है।



5.3 दिनांक 31 मार्च 2024 तक, एनईआईए ट्रस्ट के पास ₹ 15,601 करोड़ का उपयोग किया गया हेडरूम है, जिसका अर्थ है कि जारी/स्वीकृत रक्षा की अधिकतम देयता कॉर्पस द्वारा समर्थित नहीं है और नए रक्षा अनुरोधों की हामीदारी की कोई स्थिति उपलब्ध नहीं है।

5.4 स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक ट्रस्ट की आय एवं व्यय से संबंधित विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

आय	राशि करोड़ में	व्यय	राशि करोड़ में
1. सरकार से अनुदान सहायता	₹ 4,741.00	1. आयकर	₹ 1,010.26
2. गारंटी शुल्क अर्जित	₹ 817.44	2. दावा	₹ 6,908.33
3. कर वापसी	₹ 868.24	3. प्रशासनिक व्यय	₹ 41.08
4. एफडीआर पर अर्जित ब्याज	₹ 2,561.37		
5. प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत दावों की वसूली	₹ 181.32		
कुल	₹ 9,169.37		₹ 7,959.67

5.5 ट्रस्ट के फंड का निवेश सीओडी द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। फंड के निवेश पर निर्णय ईसीजीसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट के कोष को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

## 6. वित्त वर्ष 2023-24 की मुख्य विशेषताएं



- 6.1 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रस्ट के लिए दर्ज की गई कुल आय ₹ 3,794.06 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष ₹ 600.59 करोड़) थी, जिसमें ₹ 203.23 करोड़ की ब्याज आय (पिछले वित्त वर्ष ₹ 315.29 करोड़), ₹ 117.08 करोड़ की गारंटी शुल्क आय (पिछले वित्त वर्ष ₹ 157.78 करोड़), ₹ 106.31 करोड़ की दावा वसूली (पिछले वित्त वर्ष ₹ 25.27 करोड़), और पिछले वर्ष के दावा प्रावधान ₹ 3,367.44 करोड़ का निरसन शामिल है।
- 6.2 वर्ष के लिए कुल व्यय ₹3,803.39 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष ₹7,962.09 करोड़) में ईसीजीसी को ₹5.97 करोड़ के प्रशासनिक प्रभार, सार्वजनिक ट्रस्ट प्रबंधन निधि में योगदान के लिए ₹75.84 करोड़ का प्रावधान, ₹0.51 करोड़ के विधिक व्यय, ₹0.11 करोड़ के भुगतान किए गए दावे के परामर्श एवं अन्य शुल्क और ₹3,720.96 करोड़ का दावा प्रावधान शामिल है।
- 6.3 रुपए 9.32 करोड़ का घाटा था (पिछले वित्त वर्ष में घाटा ₹ 7,361.49 करोड़ था)। दिनांक 31.03.2024 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 1,209.70 करोड़ है।

दिनांक 31.03.2024 तक तुलन पत्र			
		(₹ करोड़ में)	
देयता		आस्ति	
भारत सरकार से प्राप्त कोष	4,741.00	प्रीपेड कर	489.84
सार्वजनिक ट्रस्ट प्रबंधन निधि में योगदान का प्रावधान	165.51	प्रीपेड व्यय	7.67
दावों के लिए प्रावधान	1,813.16	बकाया आय	0.84
अग्रिम रूप से प्राप्त गारंटी शुल्क	153.83	नकदी और बैंक बैलेंस (बैंकों में एफडी सहित)	1209.70
विविध क्रेडिट शेष	114.63		
आय और व्यय खाते का शेष (पिछला तुलन पत्र के अनुसार)	(5,270.75)		
सीवाई के आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष (घाटा)	(9.33)		
<b>कुल</b>	<b>1,708.05</b>		<b>1,708.05</b>



आय एवं व्यय			
(₹ करोड़ में)			
व्यय		आय	
परामर्श शुल्क और विविध व्यय	0.09	निवेश पर ब्याज आय एवं कर वापसी	203.23
प्रशासनिक प्रभार	5.97	गारंटी शुल्क	117.08
सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान	75.84	दावा वसूली	106.31
विधिक व्यय	0.51	दावों के लिए प्रावधान का निरसन	3,367.44
भुगतान किए गए दावे और दावों का प्रावधान	3,720.96	घाटा	9.33
लेखापरीक्षा शुल्क	0.02		
<b>कुल</b>	<b>3,803.39</b>		<b>3,803.39</b>

6.4 ट्रस्ट ने विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा में ₹1,184.55 करोड़ का निवेश किया है। अन्य परिसंपत्तियों में ₹0.84 करोड़ का अर्जित ब्याज, ₹25.15 करोड़ का बैंक बैलेंस, ₹7.67 करोड़ का प्रीपेड खर्च (प्रशासन शुल्क) और अब तक ₹489.84 करोड़ का प्रीपेड कर (आयकर) शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई अचिम कर नहीं चुकाया गया। दिनांक 31.03.2024 तक ट्रस्ट की कुल परिसंपत्तियाँ ₹1,708.06 करोड़ हैं।

-----



## A Review Note on the National Export Insurance Account (NEIA)

### 1. Background:

- 1.1. Medium- and Long-Term Exports or Project Exports play a pivotal role in a country's economic growth. As per the Project Exports Memorandum (PEM) of Reserve Bank of India (RBI), export of engineering goods on deferred payment terms and execution of turnkey projects and civil construction contracts abroad are collectively referred to as "Project Exports". Project export contracts are generally of high value and exporters are required to offer competitive credit terms to win the contracts.
- 1.2. ECGC, with a mission to promote exports from India provides credit risk protection to exporters in India and also to commercial banks that extend both fund based and non-fund-based facilities to exporters. A range of credit insurance products are available to cover credit risks both under Short Term (ST) exports and Medium - and Long-Term (MLT) project exports.
- 1.3. In the eighties and nineties of the last century, Iraq was engaged in a war with Iran and followed by USA attack on Iraq during the Gulf War, the political risks heightened bringing all the on-going projects in Iraq to a standstill. With the Iraqi economy collapsing, Iraq faced tremendous financial crisis that resulted in non-payment for the projects undertaken by Indian companies in Iraq. The exporters suffered huge losses and those who had obtained insurance covers from ECGC were compensated for the losses to the tune of ₹800 crore.
- 1.4. ECGC braved the Iraq crisis but realised that, if a similar situation arose in future, it would threaten the existence of the Company. Hence, in order to promote Medium - and Long-Term exports from India, it was imperative for the government to provide the necessary support to underwrite large value project exports from India.
- 1.5. With this objective, the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), Government of India (GOI), in 2006, created a public trust called "The NEIA Trust" to facilitate Medium - and Long-Term exports. The NEIA Trust aims to ensure the availability of credit risk cover for projects and other high-value



exports, which are desirable from the point of view of national interest, but which ECGC is unable to underwrite due to capacity constraints or at terms which will not affect the competitiveness of the exports. ECGC administers the NEIA Trust.

1.6. Prima facie, only those medium and long-term export projects which are viable and for which reinsurance is not available are considered for seeking support from the NEIA Trust. Additionally, exports to countries which are not likely to be covered on purely commercial considerations or are beyond country-exposure limits, acceptable credit terms/period prescribed by the Company or countries currently facing economic/political difficulties, but where Indian presence is required to be maintained as a part of the long-term strategy of the Government are also considered for underwriting the risk with the support of the NEIA Trust.

1.7. The Trust was set up with an initial corpus of ₹66 crore. When the Trust was set up, it was expected to have a corpus of ₹2,000 crore over a period. Initially, the cap on the maximum exposure was kept at 10 times the corpus available at any given time. However, with increase in demand from exporters, the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), at its meeting held on 10.09.2014, increased the corpus/ grant-in-aid commitment to the NEIA Trust from ₹2000 crore to ₹4000 crore and also increased the risk undertaking capacity (Maximum Liability Permissible) from 10 times to 20 times of the actual corpus. The CCEA had, at its meeting held on 29.09.2021, approved additional corpus infusion of ₹1,650 crore in NEIA scheme and enhanced the authorized corpus commitment to the NEIA to ₹ 4,741 crore. Accordingly, the Gol had infused capital of ₹ 744 crore in FY 2021-22 and ₹ 906 crore subsequently in the FY 2022-23, thereby enhancing the capital of the trust at its present level of ₹ 4,741 crore.

1.8. The NEIA Trust promotes MLT/project exports by extending (partial/full) support to covers issued by ECGC for MLT/project exports and by extending cover to India Exim Bank for Buyer's Credit (BC-NEIA) tied to project exports from India. Out of the total risk underwriting capacity/ ML, 75% is reserved for



the Buyer's credit scheme of the NEIA (BC-NEIA) and the balance 25% is earmarked for supporting ECGC's schemes for Medium and Long-Term exports.

**1.9.** The contribution received from the Government of India over the years, as of March 31, 2024 was ₹ 4,741 crore. However, as of March 31, 2024, there is no corpus available to support ML of covers issued/approved after accounting for income (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds), expenses (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) and provision for likely claims/ against the defaults reported and income tax demand under court appeal proceedings. The total funds available with the Trust as of March 31, 2024 was ₹ 1,209.70 crore. Further, after accounting for income (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds), expenses (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) and provision for likely claims/ against the defaults reported and income tax demand under court appeal proceedings, there is no corpus available to meet the outstanding liabilities of the Trust on account of pending claims, the tax related provisions, etc.

**1.10** In view of above, a proposal requesting the grant-in-aid of ₹ 3,900 crore on account of honouring the existing liabilities and to enable the Trust to continue support to the project-exports by issuing fresh covers, was placed before the Expenditure Finance Committee (EFC) at its meeting held on August 3, 2023.

**1.11** As against the above fund infusion request, EFC in the aforesaid meeting has recommended for infusion of ₹2,687.30 crore in the NEIA Trust. Accordingly, a Draft Cabinet Note (DCN) seeking infusion of fund to the tune of ₹ 2,687.30 crore in the NEIA Trust is under consideration with Government of India.

**1.12** The Government of India has set up a High-Powered Committee viz. the Committee of Directions (COD) under the Ministry of Commerce & Industry to ensure proper and effective utilisation of NEIA scheme, monitoring of its operations and to provide guidance, supervision and necessary approvals for



the projects to be brought under the scheme. The Ministry of Commerce & Industry is the competent authority to make suitable changes in the composition of the Committee as and when considered necessary.

The COD comprises of the following:

- i) Commerce Secretary, Chairman
- ii) Secretary, Economic Affairs, Member
- iii) Secretary, Ministry of External Affairs, Member
- iv) Additional Secretary and Financial Adviser, Department of Commerce, Member
- v) Chairman & Managing Director, ECGC, Member
- vi) Chairman and Managing Director/ Managing Director, EXIM Bank, Member
- vii) Additional Secretary/ Joint Secretary, E&MDA Division, Dept. of Commerce, Member- Secretary

## **2. Role of ECGC:**

**2.1** ECGC as the managing agency, undertakes all activities relating to the proposals for the covers (BC-NEIA covers issued to India Exim Bank and MLT insurance covers issued by ECGC) for the consideration of the COD. After obtaining the COD's approval, ECGC manages the administration of covers including issue of covers as well as monitoring, periodical reporting of the projects under cover, claim management and recovery etc. ECGC also manages the investments of the Trust.

**2.2** The accounts of the Trust are subject to annual statutory audit by auditors appointed by the CAG and further subject to supplementary audit by CAG.

## **3. NEIA Performance Summary**

**3.1** The Trust, in its initial days, promoted project exports by providing indemnity/guarantee to ECGC only for mutually agreed portion of the risk to be underwritten by ECGC in respect of large-value Medium - and Long-Term



export/project exports contracts or those in high-risk countries which were beyond the underwriting capacity of ECGC.

**3.2** In 2011, as part of the drive to promote project exports, the NEIA Trust introduced a cover to the Buyer's Credit to be extended by India Exim Bank (BC-NEIA Cover). Buyer's Credit is a unique financing mechanism that provides loan to the buyer (credit is extended to the buyer) tied to specific project from India that is to be executed by an Indian Project Exporter (IPE). This facility serves as an effective market entry tool to traditional as well as new markets in developing countries, which need deferred credit on medium or long-term basis. Since its inception, BC-NEIA cover has served as a catalyst for promoting project exports from India. The risks under the scheme are underwritten entirely on the books of the National Export Insurance Account (NEIA) Trust.

**3.3** In all, 28 covers have been issued under the Buyer's Credit scheme for an equal number of projects with an aggregate Maximum Liability of ₹ 25,214 crore to India Exim Bank in 14 countries, viz Sri Lanka, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Iran, Senegal, Maldives, Cote d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname, Mauritania and Uganda. Out of these 28 covers, 13 covers with an aggregate maximum liability of ₹14,564 crore were closed. This includes the covers on Iran (1), Ghana (2), Sri Lanka (4), Suriname (2), Zambia (1), Zimbabwe (2), which were closed on account of claim-payments to the tune of ₹6,829.67 crore against these projects. Further, one cover on Zambia was closed upon successful repayments. There were 15 Buyer's Credit covers in force as of March 31,2024, with an aggregate Maximum Liability of ₹ 10,650 crore for projects in 9 countries being executed by 8 exporter- beneficiaries. Of these, claim has been lodged under one cover issued for the project in Zambia with an estimated liability, as of 31.03.2024, of ₹ 139.14 crore(approx.). The major sectors covered under BC-NEIA are Construction work, Supply of engineering goods, Water Treatment Plants, Power Transmission & Distribution etc.

**3.4** As of March 31,2024, there were six in-principle approvals given by the Committee of Directions (COD) to cover six projects in Cameroon, Ghana,



Maldives and Madagascar with a total Maximum Liability of ₹6,273.87 crore to India Exim Bank for projects to be executed by six exporters. The validity of all the in-principle approvals had expired between June 2022 to November 2023.


- 3.5** The COD at its 60th meeting, dated 19.03.2024, directed that in view of non-availability of the headroom and as per recommendation of Expenditure Finance Committee (EFC), no further covers under the BC-NEIA should be issued and an agenda note for the cancellation of the in-principle approvals to be presented before the COD at its next meeting. In view of the same, India Exim Bank has cancelled all the in-principle approvals, as mentioned above.
- 3.6** As of 31.03.2024, the Trust had paid claims amounting to ₹ 6,829.67 crore to Exim Bank of India for their 12 Buyer's Credit facilities in Ghana, Iran, Sri Lanka, Suriname, Zambia and Zimbabwe. As of 31.03.2024, Exim Bank has shared total recoveries of ₹ 180.25 crore with the Trust on account of claims paid under Buyer's Credit facilities in Iran, Sri Lanka, Suriname, Zambia and Zimbabwe.
- 3.7** Under its MLT risk sharing scheme, the NEIA Trust, over the years, has provided support to ECGC for the 331 insurance covers, with Maximum Liability of ₹19,591 crore, issued by the company against 213 projects valued at ₹43,571 crore. As per extent provisions, the support by the NEIA Trust to ECGC ranges from 50% to 100% of risk underwritten by the Company. The risk is shared by ECGC with the Trust by way of payment of the requisite guarantee fee to the Trust as per the guidelines approved by the COD. As of 31.03.2024, 83 covers for 70 projects were in force with maximum liability of ₹4,951 crore, under the MLT Risk Sharing Scheme.

### **3.8 Total exposure under covers in-force**

The exposure covered by the Trust during FY 2023-24 has shown a negative growth of 38% (approx.) as against the corresponding period during previous FY 2022-23. The reduction in exposure is primarily on account of closure of covers due to settlement of claims or upon the expiration of covers.



**Exposure of projects cover inforce under NEIA  
in ₹ Cr**



**4. Summary of Covers under NEIA as of 31.03.2024**

S. No.	Description	BC-NEIA	ECGC	
			Policy	ECIB
<b>Covers Issued as of 31.03.2024</b>				
1	No. of Projects Covered (with Project value)	28 (Rs.18,006 cr)	179 (Rs.34,221 cr)	34 (Rs. 9,350 cr)
2	No. of Covers Issued (with cover value)	28 (Rs.16,983 cr)	209 (Rs.22,644 cr)	122 (Rs.2,834 cr)
3	Maximum Liability under Covers Issued	Rs. 25,214 cr	Rs.17,475 cr	Rs.2,116 cr
4	No. of Projects Closed (with Project value)	13 (Rs.10,599 cr)	116 (Rs. 19,900 cr)	27 (Rs. 5,679 cr)
5	No. of Covers Closed (with cover value)	13 (Rs.9,925 cr)	140 (Rs.12,711 cr)	108 (Rs. 2,052 cr)
6	No. of Projects In force (with Project value)	15 (Rs. 7,407 cr)	63 (Rs.14,321 cr)	7 (Rs.3,671 cr)
7	No. of Covers In force (with cover value)	15 (Rs. 7,058.35 cr)	69 (Rs. 9,933 cr)	14 (Rs.782 cr)
8	Maximum Liability As of 31.03.2024	Rs. 10,650 cr	Rs. 4,646 cr	Rs. 305 cr
9	No. of Countries Covered*			58
10	No. of Exporters Covered*			81

\*Country and exporter are counted only once irrespective of the No. of covers (Policy/ECIB/ Buyer's Credit) issued.



**5. Financial Position of Trust and Capacity Utilization up to March, 2024:**

- 5.1 The contribution received from the Government of India over the years, as of March 31, 2024 was ₹4,741 crore. Total available corpus as of March 31, 2024 after accounting for income of ₹4,428.37 crore (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds etc) and expenses of ₹ 7,959.67 crore (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) was ₹ 1,209.70 crore.
- 5.2 The total exposure that can be underwritten by the Trust is 20 times of available corpus or ₹ 80,000 crore whichever is lower. Out of the total allowed exposure / MLP of the NEIA Trust, 75% is reserved for the Buyer's Credit Scheme of the NEIA Trust and the balance 25% is earmarked for supporting ECGC, by way of re-insurance support for covers issued for high value project exports.
- 5.3 As of March 31, 2024, the NEIA Trust has a utilized headroom of ₹ 15,601 crore implying that the Maximum Liability of covers issued / approved is not supported by corpus and there is no room available for underwriting new cover requests.
- 5.4 The details pertaining to income and expenses of the Trust since inception and up to 31.03.2024 are shown in table below:

Income	Amount in crore	Expenses	Amount in crore
1. Grant-in-aid from Government	₹ 4,741.00	1. Income-Tax	₹ 1,010.26
2. Guarantee fee Earned	₹ 817.44	2. Claims	₹ 6,908.33
3. Tax Refund	₹ 868.24	3. Administrative expense	₹ 41.08
4. Interest earned on FDR	₹2,561.37		
5. Recovery of claims under stimulus package	₹ 181.32		
<b>Total</b>	<b>₹ 9,169.37</b>		<b>₹ 7,959.67</b>

- 5.5 The investment of the funds of the Trust is made as per the guidelines approved by the COD. The decisions on investment of funds are taken by the Investment Committee consisting of senior officers of ECGC Limited. As per



the guidelines in place, corpus of the Trust is invested in fixed deposits with scheduled commercial banks.

## 6. Key Highlights of FY 2023-24

- 6.1 The total income booked for the Trust during FY 2023-24 was ₹ 3,794.06 crore (previous FY ₹ 600.59 crore), which includes interest income of ₹ 203.23 crore (previous FY ₹315.29 crore), guarantee fee income of ₹117.08 crore (previous FY ₹ 157.78 crore), claim recovery of ₹ 106.31 crore (previous FY ₹ 25.27 crore), and reversal of last year's claim provision of ₹ 3,367.44 crore.
- 6.2 The total expenses for the year at ₹3,803.39 crore (Previous FY ₹ 7,962.09 crore) comprises administrative charges to ECGC of ₹ 5.97 crore, provision for contribution to Public Trust Administration Fund of ₹ 75.84 crore, legal expenses of ₹0.51 crore, consultancy and other charges of ₹0.11 crore claim paid and claim provision of ₹ 3,720.96 crore.
- 6.3 There was a deficit of ₹ 9.32 crore (previous FY deficit of ₹ 7,361.49 crore). The total funds available with the Trust, as of 31.03.2024, is ₹1,209.70 crore.

<b>Balance Sheet as of 31.03.2024</b>			
		<b>(in ₹ crore)</b>	
<b>Liabilities</b>		<b>Assets</b>	
Corpus received from GOI	4,741.00	Prepaid Taxes	489.84
Provision for contribution to Public Trust Admin. Fund	165.51	Prepaid Expenses	7.67
Provision for Claims	1,813.16	Income Outstanding	0.84
Guarantee fee received in advance	153.83	Cash and Bank Balances (including FDs with banks)	1209.70
Sundry Credit Balance	114.63		
Balance of Income and Expenditure account (As per last Balance Sheet)	(5,270.75)		
Surplus(Deficit) as per CY's Income and Expenditure Account	(9.33)		
<b>Total</b>	<b>1,708.05</b>		<b>1,708.05</b>



Income & Expenditure			
(in ₹ crore)			
Expenditure		Income	
Consultancy Charges and Misc. Expenses	0.09	Interest income on investments and Tax Refund	203.23
Administration Charges	5.97	Guarantee Fee	117.08
Contribution to Public Trust Admin. Fund	75.84	Claim recovery	106.31
Legal Expenses	0.51	Reversal of provision for claims	3,367.44
Claims Paid and Provision of claims	3,720.96	Deficit	9.33
Audit Fee	0.02		
<b>Total</b>	<b>3,803.39</b>		<b>3,803.39</b>

6.4 The Trust has invested ₹1,184.55 crore in Fixed Deposits with various Public and Private Sector Banks. Other assets include accrued interest of ₹ 0.84 crore, Bank balance of ₹ 25.15 crore, prepaid expenses (administration charges) of ₹7.67 crore and prepaid taxes (income tax) of ₹489.84 crore so far. No advance tax was paid during FY 2023-24. The total assets of the Trust are ₹1,708.06 crore as of 31.03.2024.

-----

